

## सरकारी योजनाओं का असर लोगों में आने लगा नजर

जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शी सोच के साथ प्रदेश में लाई गई राज्य सरकार की जनहित की योजनाओं का असर अब लोगों में नजर आने लगा है और वे सरकार की प्रशंसा करने लगे हैं। सरकार की चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो या पुरानी पेंशन योजना, स्वास्थ्य का अधिकार, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना या इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना सहित कई योजनाओं के माध्यम से इनके पात्र लोगों के लाभान्वित होने का सिलसिला लगातार जारी है और और लाभान्वित सहित विभिन्न वर्गों के लोग लगातार मुख्यमंत्री से मिलकर उनका आभार जता रहे वहीं लाभान्वित लोग श्री गहलोत की सरहना में कसौटी पहना एवं प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं।

श्री गहलोत भी लगातार अपनी योजनाओं का जनता में फीडबैक ले रहे हैं और पिछले दिनों उनके पैरों के दोनों अंगुठों में चोट लगने के कारण चल नहीं पाने के बावजूद व्हील चेयर की मदद से भी लगातार अपने आवास मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कायम रखा और लाभार्थियों से मिलकर यह भी पता लगाया कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। इस योजनाओं के लाभार्थियों का मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहना है कि यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री स्वयं लाभार्थियों से सीधा संवाद कायम कर पृष्ठ रहे हैं कि योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। इससे जहां लाभार्थी बहुत प्रसन्न नजर आये वहीं सरकारी योजनाओं का लोगों पर असर साफ नजर आने लगा है। सरकारी योजनाओं को लेकर जनता से मिल रहे फीडबैक से श्री गहलोत भी काफी खुश हैं और वह अब हर मौके पर कहने लगे हैं कि उन्हें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि राज्य सरकार की योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं और इनका असर राजस्थान के बाहर भी देखने को मिल रहा है तथा राजस्थान ने अनेक मामलों में पहल की है और कई राज्यों को दिशा दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी विजय है। राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिलाओं एवं छात्राओं को स्मार्ट फोन का वितरण किया जा रहा है

# लोग कह रहे हैं कि चीनी सेना हमारे इलाके में घुस गई है, लद्दाख में राहुल गांधी का बड़ा दावा

राहुल गांधी ने कहा, यहां चिंता की बात यह है कि चीन ने हमारी जमीन छीन ली है। लोगों का कहना है कि चीन की सेना इलाके में घुस आई है। उनकी चरागाह जमीन छीन ली गई है।

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख की यात्रा पर हैं। अपने पिता राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा, %%यहां चिंता की बात यह है कि चीन ने हमारी जमीन छीन ली है। लोगों का कहना है कि चीन की सेना इलाके में घुस आई है। उनकी चरागाह जमीन छीन ली गई है, लेकिन पीएम ने कहा कि एक इंच जमीन नहीं छीनी गई, लेकिन यह सच नहीं है। आप यहां किसी से भी पूछ सकते हैं।

राहुल गांधी ने आगे कह, लद्दाख के लोगों की बहुत सारी शिकायतें थीं, वे उस दर्जे से खुश नहीं हैं जो उन्हें दिया गया है। वे प्रतिनिधित्व चाहते हैं। यहां बेरोजगारी की समस्या है। लोग कह रहे हैं कि राज्य को नौकरशाही द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए, राज्य को लोगों की आवाज से चलाया जाना चाहिए।



ANI

आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह से पैगोंग झील तक मोटरसाइकिल की सवारी की। वह लद्दाख के दौरे पर हैं। यह अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद इस क्षेत्र का उनका पहला दौरा है। राहुल अगले सप्ताह करगिल का दौरा कर सकते हैं।

राहुल गांधी ने लेह से पैगोंग तक अपने मोटरसाइकिल सफर की कई तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस शीर्षक के साथ साझा कीं, पैगोंग झील जाने के रास्ते में जिसके बारे में मेरे पिता कहा करते थे, यह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। सोमवार को जा सकते हैं करगिल

राहुल गांधी नुब्रा घाटी में रात्रि विश्राम के लिए रविवार को मोटरसाइकिल पर रवाना हो रहे हैं। रास्ते में गांधी दुकानदारों और किसानों सहित आम लोगों से मिल सकते हैं। राहुल सोमवार को लेह वापस आएंगे। हालांकि इस दौरे को लेह में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गैर-राजनीतिक बताया, जिसका अगले साल के संसदीय चुनाव से कोई संबंध नहीं है, लेकिन गुरुवार को राहुल गांधी के आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राहुल गांधी ने दो स्थानीय क्लब के बीच फुटबॉल मैच देखने के अलावा पार्टी सहयोगियों के साथ बैठक की और युवाओं से बातचीत की। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राहुल सोमवार या मंगलवार को करगिल जिले का दौरा करेंगे और उनके वहां पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों, विशेषकर युवाओं से बातचीत करने की संभावना है।

## 'लैंडिंग के लिए तैयार रहें!', केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो की तस्वीर शेयर कर कहा- उल्टी गिनती शुरू

नई दिल्ली। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर मॉड्यूल ने आज अपने दूसरे और अंतिम डी-ऑरिंटिंग को पूरा कर लिया है। इसरो ने सोशल मीडिया पर एकस (पूर्व में ट्विटर) पर इसकी जानकारी दी। इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल के दूसरे और आखिरी चरण में बदलाव के बाद चांद से इसकी दूरी और कम हो गई है और लैंडर मॉड्यूल और 25 किमी x 134 किमी की दूरी पर चांद से ओर भी बेहद करीब आ गया है।



जारी किया है।

उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) में लिखा, 'चंद्रयान 3 मिशन 'लैंडिंग के लिए तैयार रहें!' चंद्रयान 3 का अंतिम डीऑरिंटिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक लैंडर मॉड्यूल कक्षा को 25 किमी x 134 किमी तक कम हो गया है। जैसे ही लैंडर मॉड्यूल चांद के करीब पहुंचेगा वैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ

था चंद्रयान-3 उल्लेखनीय है कि चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसने 5 अगस्त को चंद्र कक्षा में प्रवेश किया था। इसरो चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए प्रयास कर रहा है, जिससे भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा।

'लैंडिंग के लिए तैयार रहें!' ISRO के मुताबिक, चंद्रयान-3 लैंडर मॉड्यूल के 23 अगस्त, 2023 को 5 बजकर 45 मिनट पर चांद की सतह पर उतरने की उम्मीद है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी लैंडर मॉड्यूल के चांद पर लैंड करने को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट

## दिल्ली के इन दो प्रसिद्ध मंदिरों में लागू हुआ ड्रेस कोड

ऐसे कपड़े पहने तो एंट्री होगी बदन

नई दिल्ली। दिल्ली के मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए मर्यादित कपड़े पहनकर आने को लेकर सूचना पड़ लगाए जा रहे हैं। झंडेवाला देवी मंदिर और कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ऐसी सूचना लगा दी गई है। कालकाजी मंदिर में श्री कालकाजी मंदिर प्रबंधक सुभार कमेटी द्वारा मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के पहनावे को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर मंदिर में बोर्ड भी लगाया गया है। जिस पर लिखी सूचना के अनुसार सभी महिलाओं एवं पुरुषों से निवेदन है कि मर्यादित वस्त्र पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। छोटे वस्त्र, हाफ पैट, बरमुंडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी-फटी जींस आदि ऐसे कपड़े पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन करके सहयोग करें। भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए सात्विक वस्त्र में ही मंदिर में प्रवेश करें। झंडेवाला देवी मंदिर में भी ऐसा ही बोर्ड लगा दिया। जिस पर



लिखा है कि मंदिर आने वाले सभी भक्तों से अनुरोध है कि मंदिर की मर्यादा के अनुसार ही वस्त्र पहन कर आएँ। उभर, छत्रपुर मंदिर के पदाधिकारी ने कहा कि उनके यहां पर अभी मर्यादित कपड़े पहनकर आने को लेकर कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। लेकिन अगर कोई अमर्यादित कपड़े पहनकर आता है तो उसे टोक देते हैं।

# घोसी उपचुनाव में भाजपा-सपा की सोशल इंजीनियरिंग दांव पर

मुख्तार के गढ़ में इस बार मुस्लिम वोटों की संघमारी

लखनऊ। घोसी के चुनावी रण में भाजपा और सपा की सोशल इंजीनियरिंग का इन्हन का इस्तेमाल है। दलित और मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता वाली इस सीट के उपचुनाव पर सबकी निगाहें हैं। बसपा के चुनावी मैदान में न उतरने से भगवा खेमा उत्साहित है। परंपरागत वोट बैंक के साथ भाजपा की कोशिश मुस्लिमों के बीच मिशन पसमांदा को आगे बढ़ाने की भी है। ऐसे में बाहुबली मुख्तार अंसारी के प्रभाव वाले इलाके में सपा के सामने मुस्लिमों में संघमारी रोकने की भी चुनौती है। घोसी के चुनावी अखाड़े में अब भाजपा और सपा के बीच



आमने-सामने की लड़ाई है। बसपा और कांग्रेस ने इस उपचुनाव से किनारा कर लिया है। भाजपा ने पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के रूप में दलित (नूनिया) तो सपा ने सुधाकर सिंह के

रूप में अगड़े चेहरे पर दांव लगाया है। भाजपा का प्रयास यहां पसमांदा में संघ लगाने के साथ ही सपा को माय (मुस्लिम-यादव) समीकरण में समेटने का है। दलित प्रत्याशी देने वाली भाजपा की कोशिश बसपा की गैरहाजिरी में उसके वोट बैंक को भी अपने पाले में खींचने की है। पसमांदा पर किया सरकार से संगठन तक निवेश भाजपा काफी समय से पसमांदा मुस्लिमों में पैठ बढ़ाने को प्रयासरत है। केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का लाभ देने की बात हो या

सरकार और संगठन में प्रतिनिधित्व, पार्टी ने हर जगह दरियादिली दिखाई है। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि योगी-1.0 में सरकार में मुस्लिम चेहरे के रूप में मोहम्मिन रजा शामिल थे। मगर योगी-2.0 में उनकी जगह पसमांदा समाज से आने वाले दानिश अंसारी ने ले ली। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को पार्टी ने सिर्फ एमएलसी ही नहीं बनाया, सीधे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया। वहीं सपा के सामने उपचुनाव में अपनी इस सीट को बरकरार रखने की चुनौती है।

# अब कर बरसा, पर सावन में रूठे बदरा; इतिहास का हो सकता है सबसे सूखा अगस्त

नई दिल्ली। पहाड़ी राज्यों में मॉनसून बारिश के कहर के बीच मौसम विभाग ने देश के अन्य हिस्सों में कम बारिश को लेकर चिंता व्यक्त की है। मौसम अधिकारियों ने मॉनसून को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। 14 साल में सबसे लंबे 12 दिवसीय ब्रेक से बाहर आने के बाद मॉनसून 21 से 28 अगस्त तक एक और कमजोर चरण में जा सकता है। इस महीने अभी तक देश भर में पहले से ही 36 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। शीर्ष मौसम विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि अगस्त 2023 भारतीय इतिहास में रिकॉर्ड सबसे शुष्क महीने में एक बन सकता है। अनुभवी मौसम विज्ञानी और केंद्रीय पृथ्वी

विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव एम राजीवन का कहना है कि अगस्त 2023 में संभावित रूप से लगभग 40 प्रतिशत वर्षा की कमी हो सकती है, जो 2005 में दर्ज 25 न की कमी (1913 के बाद से इतिहास में सबसे शुष्क अगस्त) से अधिक है। राजीवन ने कहा कि अल नीनो का असर भारत के मॉनसून पर पहले से ही दिखने लगा है। उन्होंने कहा, 'मॉनसून में लंबे समय तक रुकावट दौरान देश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश बेहद कम हुई है, बड़े पैमाने पर कारकों के काम करने का संकेत है। यह अल नीनो का एक विशिष्ट प्रभाव है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगस्त माह खलम होने में हालांकि अब सिर्फ



10 दिन ही बचे हैं लेकिन, देश भर 36 प्रतिशत की वर्षा कम हुई है। दक्षिण हिस्से की बात करें तो यहां 66 प्रतिशत कम बारिश हुई है। जबकि उत्तर परिसर में 45 प्रतिशत कम बारिश हुई है। क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक मौसम वैज्ञानिकों के ऐतिहासिक डेटा के मुताबिक, अल नीनो के दौरान भारत में सितंबर में

बारिश की कमी की एक महत्वपूर्ण संभावना है। उन्होंने कहा, सितंबर में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी की 87 प्रतिशत संभावना है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में यह कमी 20 प्रतिशत या उससे अधिक 47 प्रतिशत कम होने की संभावना है। स्काईमेट के उपाध्यक्ष जी पी शर्मा ने कहा कि 2005, 2009 और 2021 वर्ष के दौरान अगस्त महीना पिछले 18 वर्षों में सबसे शुष्क थे। देश के इन हिस्सों में अच्छी बारिश इस साल का अगस्त महीना ऐतिहासिक शुष्क महीने में शामिल हो सकता है। वर्तमान निम्न दबाव प्रणाली जल्द ही मॉनसून को हिमालय की तलहटी की ओर स्थानांतरित कर सकती है,

जिसके परिणामस्वरूप केवल पूर्वी और उत्तरपूर्वी भारत के साथ-साथ तलहटी के पास के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में अगस्त में लगभग 36 प्रतिशत बारिश की कमी एक दुर्लभ घटना है। पहले कब पड़ा ऐसा सूखा इससे पहले साल 2009 का अगस्त महीना भी गंभीर सूखा रहा था। उस वर्ष अगस्त माह में वर्षा 192.5 मिमी दर्ज हुई थी, जबकि 2005 में यह 190.1 मिमी था। इस साल 1-19 अगस्त तक देश में कुल बारिश 106.2 मिमी रही है, जबकि सामान्य बारिश का औसत 166 मिमी है।

सूखे की वजह-मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मॉनसून के अपने सामान्य मार्ग से भटकने को प्रशांत महासागर में एक मजबूत अल नीनो घटना के उद्भव के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अल नीनो का मॉनसून पैटर्न को बाधित करने और प्रत्याशित मौसमी वर्षा को बाधित करने का इतिहास रहा है। इससे मॉनसून गर्त अपनी निर्णायक स्थिति में बहाल हो जाता है, जो विराम के दौरान हिमालय की तलहटी में स्थित हो जाता है। हालांकि, यह मॉनसून की ताकत को पूरी तरह से बहाल करने में विफल रहा है। जबकि भारत के अधिकांश हिस्सों में जल्द ही सामान्य से नीचे का एक और चरण शुरू होगा।

# भारत में तेज गति से बढ़ रही है नागरिकों की औसत आय



प्रतिशत होने जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष (2500 अमेरिकी डॉलर) आंकी गई है जबकि वित्तीय वर्ष 2047 में यह बढ़कर 14.9 लाख रुपए प्रतिवर्ष (12,400 अमेरिकी डॉलर) होने जा रही है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों जैसे 'स्किल इंडिया' आदि के चलते प्रति व्यक्ति आय में उक्त वृद्धि होने जा रही है। साथ ही, भारत के लिए कई नए क्षेत्रों जैसे 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस', 'इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स', 'स्पेस टेक्नॉलॉजी' डिफेंस के क्षेत्र, आदि में अपार सम्भावनाएँ मौजूद हैं और इन क्षेत्रों में भारत का दबदबा बढ़ने की सम्भावना है। दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में अन्य राज्यों से श्रमिकों का पलायन हो रहा है क्योंकि यह राज्य उद्योग प्रधान राज्य हैं। श्रमिकों के पलायन से इन राज्यों को सीधे सीधे लाभ हो रहा है क्योंकि इससे इन राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दृष्टिगोचर है एवं इससे इन राज्यों से आय कर वित्तियार्थी भी अधिक संख्या में फाइल हो रही हैं। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2012 में कुल आय कर

वित्तियार्थी फाइल करने वाले नागरिकों में से 84.1 प्रतिशत नागरिकों ने कर निर्धारित की जाने वाली राशि से कम राशि (शुल्क देयता राशि) की आय कर वित्तियार्थी फाइल की थी जबकि वित्तीय वर्ष 2023 में यह संख्या घटकर 64 प्रतिशत हो गई है, इससे भी यह झलकता है कि अब नागरिकों की औसत आय में वृद्धि हो रही है। चीन में आर्थिक विकास की दर अब लगातार कम हो रही है, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर बढ़कर लगभग 20 प्रतिशत तक पहुंच गई है, चीन में विशेष रूप से कन्स्ट्रक्शन नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आ रही है, इस क्षेत्र में कार्य कर रही बड़ी बड़ी कम्पनियों के दुबने का खतरा मंडरा रहा है। चीन का निर्यात लगातार कम हो रहा है। चीन की केंद्र एवं राज्य सरकारों ने इतना अधिक कर्ज लिया है कि अब इस कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए भी उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। चीन में युवाओं की आबादी कम होकर बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है। चीनी युवाओं का ही चीन की अर्थव्यवस्था पर अब भरोसा नहीं रहा है। इस माहौल में विदेशी निवेशकों ने चीन में निवेश करने से मुंह मोड़ लिया है। अब विदेशी निवेशक जापान,

ताईवान एवं भारत जैसे देशों की ओर रूख कर रहे हैं। जापान में चूंकि युवाओं की आबादी बहुत कम है एवं बुजुर्गों की आबादी अधिक होती जा रही है अतः विदेशी निवेश को सहायाने की ताकत जापान में अब पहले जैसे नहीं रही है। इसके साथ ही ताईवान एक छोटा देश है अतः अत्यधिक बड़ी राशि के विदेशी निवेश ताईवान में करने की अपनी सीमाएँ हैं। जबकि भारत में युवाओं की आबादी विश्व में सबसे अधिक है एवं भारत में उत्पादित वस्तुओं के लिए विश्व का सबसे बड़ा उपभोग बाजार उपलब्ध है। इस प्रकार कुल मिलाकर अब विदेशी निवेशकों को निवेश की दृष्टि से केवल भारत ही एक आकर्षण का केंद्र नजर आ रहा है।

विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या वर्तमान के 140 करोड़ के स्तर से वर्ष 2027 में 161 करोड़ के स्तर पर पहुंच जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में 53 करोड़ नागरिक, कार्यशील जनसंख्या (15 से 64 वर्ष के बीच) की श्रेणी में शामिल है जबकि वित्तीय वर्ष 2047 में यह संख्या बढ़कर 72.5 करोड़ हो जाएगी। अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की कुल जनसंख्या का 37.9 प्रतिशत भाग ही कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में शामिल है जो वित्तीय वर्ष 2047 में बढ़कर 45 प्रतिशत हो जाएगा। साथ ही, कार्यशील जनसंख्या में से वित्तीय वर्ष 2023 में आय कर अदा करने की श्रेणी में 31.3 करोड़ नागरिक शामिल थे जो वित्तीय वर्ष 2047 में बढ़कर 56.5 करोड़ हो जाएंगे। यह वित्तीय वर्ष 2023 में कुल कार्यशील जनसंख्या का 59.1 प्रतिशत था और वित्तीय वर्ष 2047 में यह बढ़कर 78 प्रतिशत हो जाएगा। युनाइटेड नेशन्स के एक अन्य अनुमान के अनुसार भारत में कार्यशील जनसंख्या (15 से 64 वर्ष के बीच) वर्ष 2040 तक बढ़ती रहेगी एवं अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच कर इसके बाद घटनी शुरू होगी। वर्ष 2047 में भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का 22 प्रतिशत भाग ही कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहेगा। वर्ष 2047 तक भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का अधिकतम हिस्सा (78 प्रतिशत) उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत होगा जिससे इस वर्ग की औसत आय और अधिक तेजी से बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है।

## संपादकीय


### नफरत के खिलाफ खाप

अब तक हरियाणवी समाज में खापों की परंपरागत सोच व रूढ़िवादी फैसलों की चर्चा देश-विदेश में होती रही है। मान्यता रही है कि इन संगठनों की कार्यशैली में प्रगतिशीलता से अंतर्विरोध नजर आता है। खासकर खुलेपन के तौर-तरीकों व विचारों के साथ नया आकाश तलाशती नई पीढ़ी को लेकर। लेकिन यह सुखद ही कहा जायेगा कि नूंह में हुई हालिया हिंसक घटनाओं के चलते राज्य में सामाजिक समरसता पर जो आंच आई थी, उसे दूर करने की दिशा में खाप पंचायतें प्रगतिशील सोच के साथ सामने आ रही हैं। हाल ही में राज्य की फोगाट व सांगवान पंचायतों ने नूंह में निकाली गई उस शोभायात्रा के औचित्य को लेकर शंका जतायी, जिसको लेकर वहां हिंसक घटनाएं सामने आई थीं। साथ ही पंचायतों ने उन कथित गौरवशाली की भी गिरफ्तारी की मांग की है जिनकी भूमिका मांब लिचिंग के एक मामले में संदिग्ध रही है। उनका इशारा इस साल की शुरुआत में भिवांनी में कथित रूप से दो लोगों की हत्या के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर था। खापों ने राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को पलीता लगाने वाले तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग भी की है। साथ ही खापों ने नूंह की हालिया हिंसा के बाद दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाली की भी बात कही है। वहीं दूसरी ओर चरखी दादरी जिले में खापों की अलग-अलग बैठकों में, सदस्यों का कहना था कि राज्य में विभिन्न खापें सांप्रदायिक एजेंडा बढ़ाने की कोशिश करने वाले तत्वों पर लगातार लगाते मुद्दे पर एकजुट हैं। खापों ने नूंह में ब्रज मंडल यात्रा के आयोजन को लेकर भी सवाल उठाये और इसे महज राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश ही बताया। बैठकों में कहा गया कि सभी समुदाय अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये प्रतिबद्ध हैं। बैठकों में नूंह व गुरुग्राम की हिंसा की निंदा भी की गई। वहीं दूसरी सांगवान खाप पंचायत में हालिया हिंसा के प्रति आक्रोश जताते हुए चेतावनी दी जायेगी।

### चितन-मनन

### नर या नारायण कौन थे राम

श्रीराम पूर्णतः ईश्वर हैं। भगवान हैं। साथ ही पूर्ण मानव भी हैं। उनके लीला चरित्र में जहां एक ओर ईश्वरत्व का वैचित्र्यमय लीला विन्यास है, वहीं दूसरी ओर मानवता का प्रकाश भी है। विश्वव्यापिनी विशाल यशक्रीति के साथ सम्यक निर्भयमानिता है। वज्रवत न्याय कठोरता के साथ पुण्यवत प्रेमकोमलता है। अनंत कर्ममय जीवन के साथ संपूर्ण वैराग्य और उपरति है। समस्त निष्पत्ताओं के साथ नित्य सहज समता है। अनंत वीरता के साथ मनमोहक नित्य सौंदर्य है। इस प्रकार असंख्य परस्पर विरोधी गुणों और भावों का समन्वय है। भगवान श्री राम की लीला चरित्रों का श्रद्धा भक्ति के साथ चिंतन, अध्ययन व विचार करने पर साधारण नर नारी भी सर्वगुण सम्पन्न एवं सर्वगुण रहित अखिल विश्व व्यापी, सवार्तीत, सर्वमय श्रीराम को अपने निकटस्थ अनुभव कर सकते हैं। श्री राम में नर और नारायण तथा मानव और ईश्वर की दूरी मिटाकर भगवान के नित्य परिपूर्ण स्वरूप का परिचय मिलता है। भगवान पुरुषोत्तम ने श्री राम के रूप में प्रकट होकर मानवीय रूप में सांसारिक लोगों के दिलो दिमाग पर नित्य प्रभुत्व की प्रतिष्ठा कर समस्त भारतीय संस्कृति को आध्यात्म भाव से ओतप्रोत कर दिया है। रामचरितमानस महाकाव्य तुलसीदास की अमर कृति है। यह एक ऐसा सर्वोपयोगी आदर्श प्रदर्शित करने वाला पवित्र धर्मग्रंथ है। जिसने मयादी पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम को समस्त नर नारियों के हृदय में परम देवत्व रूप के साथ अत्यंत आत्मीय रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसने शिक्षित अशिक्षित? आबाल वृद्ध शास्त्र पुरुष सभी प्रकार के जीवन को श्रीराम के प्रति भक्ति तथा प्रेम के दिव्य, मधुर सुधारण से अभिषिक्त कर अपना अद्भुत प्रभाव विस्तार किया है। श्रीरामचरितमानस के श्रीराम सर्वसद्गुण संपन्न मयादायक परम आदर्श शिरोमणि होने के साथ ही स्वमहिमा में स्थित महामानव हैं। श्रीरामचरित मानस के श्रवण, मनन तथा चिंतन से अत्यंत विन्यासक, असदाचारी कठोर हृदय मानव भी पवित्र विचार परायण एवं सदाचारी होकर निर्मल प्रेम भक्ति की रसधारा में सराबोर होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस ग्रंथ के सभी पात्र आदर्श चरित्र से परिपूर्ण हैं। इसमें गुरु शिष्य, माता पिता, भ्राता पुत्र स्वामी सेवक, प्रेम सेवा, क्षमा, वीरता, दान, त्याग, धर्मनीति आदि संपूर्ण आदर्शों के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। यही कारण है कि इस ग्रंथ का सर्वत्र समादर है। तथा यह सर्वप्रिय ग्रंथ है। श्रीरामचरितमानस की चौपाइयों को अधिकांश मानव मंत्रवत कर जीप परायण करते हैं। वाल्मीकि ने श्री रामायण की रचना करते समय श्रीराम कथा के रूप में मानवता की कथा कही है। उन्होंने श्रीराम के चरित्र के माध्यम से विश्व के मानवों को मानवता का संदेश दिया है। राम जैसा नर मानव है। राम के समान चरित्र से मानवता की प्राप्ति होती है। राम एक ऐसे सेतु हैं जहां छोरे से शुरू होकर मनुष्य दूसरे छोरे पर परमात्मा तक पहुंच जाता है।



विनोद तकियावाला

आदिकाल से श्रुति के श्रुजन में पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। जब विज्ञान का नही था तब आदिकाल में मानव सभ्यता का विकास नही हुआ था, तब कबीले में मानव जंगल के प्राकृतिक बतावरण रहा करते थे। लेकिन शैने मानव जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ज्ञान विज्ञान का अवलम्बन लेकर विकास की नई गाथा लिखना प्रारम्भ कर दिया! समय का चक्र घुमता गया है। अन्धधुंध विकास के नाम विनाश रूपी दैत्य का जन्म हुआ। कालान्तर इन्होंने अपना विकाराल रूप धारण करके मानव के लिए बाधाएं उत्पन्न कर ने लगा। धीरे धीरे मानव अपने प्रकृति व पर्यावरण से दूर होते गए। आज भले मानव विज्ञान के सहारे भले ही जमीन से चाँद सितारे की दुर को नाप सकते है। खड़ी

गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि, 'इस्लाम का जन्म 1500 साल पहले हुआ था। भारत में कोई भी बाहरी नहीं है। हम सभी इसी देश के हैं। भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू थे, बाद में मतांतरित हो गए।' कब्रिस्तान का साथ छोड़कर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) बनाने वाले जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का बयान महत्वपूर्ण है। आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है, 'पहले कश्मीर में कोई मुसलमान नहीं था। वहां सभी कश्मीरी पंडित थे। भारत में कोई भी बाहरी नहीं है। हम सभी इस देश के हैं। हम बाहर से नहीं आए हैं। इसी मिट्टी की पैदावार हैं। इसी मिट्टी में खत्म होना है। हिन्दू धर्म प्राचीन है।' आजाद की यह वाकई महत्वपूर्ण और तटस्थ टिप्पणी है, क्योंकि हिन्दू संस्कृति एक है। अनेक रूपों वाली यह संस्कृति सर्वसमावेशी है। अपनी मूल आत्मा में एक है। भारत भूमि हजारों वर्ष से जिज्ञासा की तपस्थली रही है। ऋग्वेद के रचनाकाल से लेकर आधुनिक भारत तक यहां की मेधा ने अनुभूति और वैज्ञानिक विवेक का सारभूत ज्ञान रस संग्रहीत किया है। यहां पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, व वेदान्त प्राचीन षट दर्शन हैं। बुद्ध और जैन को मिलाकर आठ दार्शनिक धाराएं हैं। गीता, उपनिषद् व ब्रह्म सूत्र दर्शन ग्रंथ हैं। रामायण और महाभारत महाकाव्य हैं। यह सामान्य की धरती है। विश्व मानवता की हितैषी है यह। प्रकृति ने हिन्दुस्थान को बड़े प्यार से गढ़ा है। हिन्दू कीट पतंग के प्रति भी संवेदनशील है। हिन्दुओं का सभी विचारधाराओं के प्रति आदर भाव है। सर्व पंथ समभाव हिन्दू जीवन रचना से ही विकसित हुआ है। हिन्दू वैदिक दर्शन के उत्तराधिकारी हैं यहाँ उपनिषदों के रचनाकाल तक दर्शन आधारित धर्म का विकास हो चुका था। हिन्दू धर्म की व्यापकता ध्यान देने योग्य है। बृहदारण्यक उपनिषद् के ऋषि कहते हैं, 'जिससे सूर्य उदय और अस्त होते हैं, वे प्राण से उदित होते हैं, प्राण से ही अस्त होते हैं। इस धर्म को देवों ने बनाया है।' इस मंत्र में धर्म का अर्थ नियम है। हिन्दू धर्म का सतत विकास हुआ है। यहां दर्शन और वैज्ञानिक विवेक का जन्म पहले हुआ। धर्म का बाद में। जिज्ञासा और प्रश्नाकुलता हिन्दू धर्म व दर्शन की विशेषता है। यहां साधारण हिन्दू भी आस्था पर प्रश्न

## पाँच करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा करेंगे

दूसरी ओर हमारा जीवन दुबरा हो गया। विकास के नाम पर विशालकाय कंरीट के जंगल अवेध खनन, जंगल के अंधाधुन कटाई के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सम्पूर्ण मानव जाति आज प्रकृति के बदलते हुए मियाज से जलवायु परिवर्तन से जुझ रही है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक प्रकोप के कारण अनेक दिनों भुक्कम, बाढ़-सुखाड, अनेक संक्रामक बीमारियों का उदरहारण आये दिनों देखने को मिलता है। विश्वक महामारी कोरोना संकट इसका सबसे बड़ा उदरहारण है। प्रकृति में संतुलन बनाये रखने पड़े पौधे -अर्थात् वन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विगत दिनों केन्द्र सरकार ने इस क्षेत्र सहराणीय कदम उठाया गया है। आप को बता दे कि विगत दिनों अमित साह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने ग्रेटर नोएडा के सुल्तान ग्राम स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल(सी आर पी एफ)ग्रुप सेंटर में चार करोड़वाँ पौधा लगाया है। इस अवसर उन्होंने सीआरपीएफ के 8 परिसरों में नवनिर्मित 15 भवनों का ई-उद्घाटन भी किया। अमित साह ने अपने उद्घोषण में कहा कि हम देश भर में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जरूर पूरा करेंगे। जलवायु परिवर्तन और ओजोन लेयर में बढ़ते छेद को रोकने के लिए पौधारोपण सबसे बड़ा हथियार है। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सीआर पीएफ के अधिकारियों, जवानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सीआरपीएफ ने पर्यावरण संरक्षण में आज एक मील

का पत्थर स्थापित किया है। कई लोग कहते थे कि पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। लेकिन केन्द्र सरकार, सीआरपीएफ के सहयोग से आज 4 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं जो धरती को हरा-भरा कर रहे हैं। जब हम पौधे लगाते हैं तो कई सालों से कई पीढ़ियाँ उसका लाभ उठाती हैं। उन्होंने ने कहा कि ओजोन लेयर में निर्मित हो रहे छेद के खतरे को रोकने के लिए तथा पृथ्वी को बचाने के लिए एकमात्र रास्ता पौधारोपण है। इस अभियान के तहत पूरी रिसर्च करके पौधे लगाए जा रहे हैं। जो पौधे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले तथा कई सालों तक चलने वाले हैं। उन्हीं पौधों को लगाया जा रहा है जिसमें पीपल का वृक्ष बेहद महत्वपूर्ण है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को कई क्षेत्रों में विकसित और आत्मनिर्भर बनाया है। जलवायु परिवर्तन व ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध लड़ाई में भारत को मुखिया बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। भारत सरकार ने फ्रांस के साथ सोलर एलाइंस के लिए भी समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने भारत की परंपरिक जीवन शैली को रखा है। भारत सरकार द्वारा नेशनल सीएन मिशन, नेशनल वॉटर मिशन तथा नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन सहित 8 ऐसे मिशन चलाए जा रहे हैं जो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण निभाएंगे। हम 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो देशवासियों से कह पाएंगे कि सीआरपीएफ केवल

लोगों की जीवन की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नरेंद्र मोदी से प्रेरित और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सीआरपीएफ ने वर्ष 2020 से 2022 के छोटे अंतराल में पूरे देश में सामूहिक रूप से 3.55 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। सभी केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों के लिए वर्ष 2023 में कुल 1.5 करोड़ पौधे लगाने का सामूहिक लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत कुल पौधारोपण की संख्या पांच करोड़ हो जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत जलवायु के अनुरूप इकाई वार लगाए जाने वाले पौधों की संख्या और प्रजातियों का आंकलन किया गया और इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तपश्चात नोएडा के सेक्टर 1 स्थित कुभको भवन में गृहमंत्री अमित शाह कुभको द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा किया गया विदित रहे कि अमित शाह गृह मंत्रालय के साथ सहकारिता विभाग के भी कैबिनेट मंत्री है। सहकारिता के क्षेत्र में अनेक बड़ी योजनाएं परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का यह कदम निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। केन्द्र सरकार प्रकृति के प्रति प्रेम मानवता के प्रति एक उल्लेखनीय प्रयास है। स्वैर फिलहाल आप से यह कहते हुए विदा लेते हैं।

## गुलाम नबी आजाद के मर्म को समझो भाई



करते है और संवाद भी। प्रश्नाकुलता हिन्दू समाज की बड़ी पूंजी है। वैदिक ऋषियों ने प्रकृति का गहन अध्ययन किया था। प्राकृतिक नियम शाश्वत होते हैं। पूर्वज प्रकृति की नियमबद्धता से प्रेरित हुए थे। डॉ. पीवी काणे ने 'धर्म शास्त्र का इतिहास' के पहले भाग में लिखा है, 'धर्म किसी संप्रदाय या मत का द्योतक नहीं है। यह जीवन का ढंग या आचार संहिता है। यह समाज या व्यक्ति के रूप में मनुष्य के कर्म और कृति को व्यवस्थित करता है।' यहां धर्म का आशय हिन्दू जीवन रचना से है। यह बिना जांचा परखा अंध विश्वास नहीं है। ऐसे विश्वास के लिए अंग्रेजी में 'बिलीवर' शब्द प्रयुक्त होता है। बिलीवर या विश्वासी तर्क नहीं करते। तर्क नहीं सुनते। वे अपने विश्वास दूसरों पर थोपने के लिए हिंसा को भी उचित ठहराते हैं। हिन्दू सभी पंथिक विश्वासों का सम्मान करते हैं। हिन्दुत्व मुक्त विचार का सार है। सत्य सार्वभौम सता है और प्रकृति का सविधान ऋत भी। ऋत और सत्य प्रायः समानार्थी हैं। तैत्तिरीय उपनिषद् में संकल्प है 'ऋतं वदित्यामि - ऋत बोलूंगा। सत्यं वदित्यामि - सत्य बोलूंगा।' सत्य बोलना और धर्म का आचरण लोकमंगल की साधना है- सत्यं वद, धर्मं चर। धर्म की नींव का आधार

प्रकृति के शाश्वत नियम हैं। धर्म को तार्किक परिणति तक विस्तृत करने वाले पूर्वज विलक्षण हैं। वे धर्म की व्यावहारिक आचार संहिता गढ़ते हैं लेकिन पंथिक महजबी विश्वास की तरह धर्माचरण के लिए बाध्य नहीं करते। हिन्दू धर्म में तर्क, वाद-विवाद संवाद पर रोक नहीं है। प्राचीनकाल में धर्म तत्वों पर खुली बहस थी। विद्वानों की गोष्ठियां होती थीं। शास्त्रार्थ थे। धर्म के मूल तत्व पर भी संवाद थे। महाभारत के रचनाकाल में धर्म की तेजस्विता घटी थी। धर्म के निर्वचन में कटिघाई थी। महाभारत के यक्ष प्रश्न आधुनिक काल में भी लोकप्रिय है। यक्ष प्रश्नकर्ता था और पांचो पांडव उत्तरदाता। 4 पांडव उत्तर नहीं दे सके। युधिष्ठिर ने उत्तर दिये। महत्वपूर्ण प्रश्न था, 'का पंथाः -जीवन मार्ग क्या है?' युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, 'मैंको अप्रतिष्ठा, श्रुतियो विभिन्नः, नैको ऋषियंस्य मतं प्रमाणं/धर्मस्य तत्त्व निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः स पंथाः'- तर्क की प्रतिष्ठा नहीं। वेद वचन भिन्न भिन्न। अनेक ऋषि, अनेक मत प्रमाणं। धर्म तत्व अंतर्गुहं हैं। जिस मार्ग से महापुरुष/महाजन गए हैं वही उचित पंथा है। (महाभारत वन पर्व) यहां विचारों की मत भिन्नता है।

दर्शन और वैज्ञानिक विवेक से यहां विश्ववैरोप्य संस्कृति का विकास हुआ। जगत एक सुसंगत व्यवस्था है। धर्म इसी व्यवस्था को बनाए रखने की आचार संहिता है। कभी कभी इस व्यवस्था में गड़बड़ी आती है। गीवाकार ने इसे 'धर्म की ग्लानि' कहा है, 'यदायदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत'। धर्म के पराभव से आराजकता आती है। धर्म को फिर से व्यवस्थित करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। हिन्दू मन पूरे विश्व को परिवार मानता है। प्रकृति के अंश है हम सब। प्रकृति से हमारे व्यवहार की आत्मीयता हिन्दुत्व है। हिन्दू धर्म सम्पूर्णता के प्रति हमारा सत्यनिष्ठ आचरण और व्यवहार है। कठोपनिषद् में नचिकेता और यम के बीच प्रश्नोत्तर हैं। यम ने उसे सत्यधृति कहा है। नचिकेता ने यम से पूछा, 'जो धर्म से पृथक है, अधर्म से पृथक है, भूत भविष्य से भी पृथक है, कृपा कर के आप मुझे वही बताएँ।' यहां धर्म राष्ट्र जीवन की आचार संहिता है। धर्म की साधना देशकाल के भीतर है। ऋग्वेद के साढ़े दस हजार मंत्रों में एक भी मंत्र धर्म पालन की जोर जबरदस्ती का निर्देश नहीं देता। वैदिक परंपरा का एक सुंदर शब्द है-ऋत। ऋत अर्थात् संकल्प। लोकमंगल के कार्य करने का संकल्प ऋत है। वे प्रकृति के सविधान ऋत से कोई ऊपर नहीं है। वैदिक देवता भी ऋती हैं। (ऋ.3-7-8) ऋत की सुंदर परिभाषा है, ऋतृत् के अनुसार चलना ऋत है। (ऋ.3-4-7) अग्नि देव भी ऋत व्रती है। (ऋ.3-7-8) सूर्योदय के पूर्व ऊषा आती हैं। ऊषा भी ऋत का अनुसरण करती हैं। (ऋ. 3-61-1) ऋत का पालन धर्म है। देवता मनुष्यों के आराध्य हैं। लेकिन धर्म के नियमों से उन्हें कोई छूट नहीं है। सब धर्म व्रती हैं। हिन्दुत्व का दर्शन परिपूर्ण लोकतंत्र है। ईश्वर भी विमर्श के दायरे में है। लोकायत दर्शन अनौश्वरवादी रहा है। हिन्दुत्व में इसकी भी प्रतिष्ठा है। ईश्वर विश्वासी भी कई तरह के हैं। कुछ ईश्वर को सर्वोच्च शासक मानते हैं। अनेक विद्वान ईश्वर को कर्ता, भर्ता, दाता व विधाता मानते हैं। कुछ उसे सर्वव्यापी मानते हैं। हिन्दुत्व में सबका स्वीकार है। यास्क ने ठीक ही तर्क को देवता बताया था। हिन्दू होने का अपना आनंद है।

- हृदयनारायण दीक्षित  
(लेखक, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं।)

## सच्चे मन से किया गया कार्य समाज में सदैव दिलाता है मान सम्मान: समाजसेवक मुशरफ खान

**संस्कार उजाला**  
**आगरा।** संकट की घड़ी में बेजुबानों पर ही नहीं इंसानों पर भी कभी - कभी ऐसा कठिन समय आ जाता है जब अपने ही अपने से मुँह मोड़ लेते हैं। ऐसे संकट के समय में सुप्रशिद्ध एवं लोकप्रिय समाजसेवा मुशरफ खान जरूरतमंदों का सहारा बनकर उनकी हर सम्भव मदद करते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं साहित्यिक मूल्यों को समर्पित संस्था लोगों के दिलों में घर बना चुका है। राष्ट्रवादी सामाजिक चिंतक, सुप्रशिद्ध एवं लोकप्रिय समाजसेवी मुशरफ खान साहब ने इस सन्दर्भ में सभी से अपील करते हुये कहा कि गरीब, असहाय, जरूरतमंदों का और बेजुबानों का ध्यान रखें। क्योंकि

सच्चे मन से किया गया कार्य समाज में सदैव मान सम्मान दिलाता है। हम सभी इंसानियत में विश्वास करते हैं और इसी को को सक्षी मानकर समाजसेवा करने के लिए प्रयासरत हैं। यह सेवा आपस में भाईचारा कायम रहे और हम अपने सहयोग से किसी का भला कर सके ऐसा प्रयास करते हैं। यही सब वो बातें हैं जो हमें सच्चाई की ओर ले जाती हैं। नरसेवा सेवा नारायण को ध्येय वाक्य मानकर बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हर गरीब, असहाय, जरूरतमंदों और बेजुबानों तक हर सम्भव मदद पहुंचाने का हमारा प्रयास अनवरत जारी है। इसकी शुरुआत लोगों की सेहत स्वास्थ्य एवं शिक्षा को देखते हुए शुरू की गई। संस्था लोगों को स्वास्थ्य,




शिक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ मानवता के आधार पर पिछले 10 वर्षों से निशुल्क जरूरतमंदों की सेवा में निरन्तर कार्य जारी है। गरीब, असहाय, जरूरतमंद की परेशानियों को देखते हुए चाहे किसी का इलाज करवाना हो या सूखा राशन वितरण हो या स्वास्थ्य, शिक्षा में

समानता के आधार पर हर संकट की घड़ी में उनके सहयोग में आगे रहा है और देशहित में बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आगे भी जारी रहेगा। हमारे एक प्रयास के समाज सेवा के कार्यों को लोग खुद को सेवक बता के गर्व महसूस करते हैं और हर सामाजिक कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर अपना पूरा सहयोग भी देते हैं और इसी बात को देखते हुए समाजसेवा का निर्णय लिया था ताकि हर जरूरतमंद की सहायता करने में कहीं दिक्कत ना आए। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा हर गरीब, असहाय, जरूरतमंदों और बेजुबानों तक हर सम्भव मदद पहुंचाने का हमारा प्रयास अनवरत जारी है। रोज की भांति पौधों को सहेजना उनको खाद पानी देना, नई

पौध लगाने का कार्य बुजुर्गों के आशीर्वाद से लगातार आज भी जारी है, साथ ही गौमाता, पक्षी, श्वान व बंदरों को भोजन पानी एवम जरूरतमंदों को सूखा राशन व जरूरतमंद बच्चों को किताब, काँपी, पेंसिल वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। बंदरों को रोज की भांति केले व फल उपलब्ध करने के साथ ही जरूरत मंदों से मिली जानकारी पर खाना वितरण किया जा रहा है व बेजुबान के पानी पीने के लिये अनवरत बस्तियों में नौद रखवायों जा रही हैं। साथ ही संकट के समय में संस्था के द्वारा अलग-अलग बस्तियों में भोजन एवं दवा आदि वितरण का सेवाकार्य निरन्तर किया जा रहा है। क्यूकी बेजुबान पशु आपसे अपनी भूख-प्यास के

वारे में बता नहीं सकता है। हमें स्वयं आगे आकर उनकी सेवा करनी है। हमारी भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि हम जो कुछ देते हैं, वह कई गुना वापस मिलता है। सेवा तो सबसे बड़ा पुण्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से गौहत्या रोक की है, तब से गौशालाओं में गायों की संख्या बढ़ गई है। इस लिए समाज के हर व्यक्ति को आगे आकर गायों की सेवा करनी चाहिए। गौसेवा करने वालों के सभी दुःख, दर्द और कष्ट गौमाता हर लेती है। इसलिए हमारी सभी से विनम्र अपील है कि जरूरतमंदों का और बेजुबानों का ध्यान रखें। क्योंकि सच्चे मन से किया गया कार्य समाज में सदैव मान सम्मान दिलाता है।

## बिजनौर जंगल में मिले गुलदार के तीन शावक



**संवाददाता**  
**बिजनौर।** नजीबाबाद इलाके में जंगल में गुलदार के तीन शावक मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। गुलदार के शावक देखने के लिए आपसपास के सैकड़ों लोगों के भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग के टीम। ग्रामीणों ने गुलदार के तीनों शावकों को बोलत से पिलाया दुध। बिजनौर जिले में पिछले 8 महीने से गुलदार ने आतंक मचा रखा है। गुलदार के हमले से अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है जबकि काफी लोग घायल हो चुके हैं। मामला बिजनौर में नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम धनसीनी का है। जहां शनिवार को गांव के कुछ किसान

अपने खेतों में गन्ना बांधने के लिए गए हुए थे। जैसे ही वे गन्ना बांधते हुए खेत के बीच में पहुंचे तो उन्हें वहां गुलदार के तीन शावक पड़े मिले। गुलदार के तीन शावक देख कर किसानों के होश उड़ गए। गुलदार के शावकों की खबर जैसे ही गांव पहुंची तो काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा गए। ग्रामीण तीनों शावकों को गांव लेकर आ गए, ग्रामीणों ने तीनों शावकों को बोलत से दुध भी पिलाया। गुलदार के शावकों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं ग्रामीणों का कहना है की किसी मां से उसके बच्चों को छीन लिया जाए तो वह मां बहुत ही खूँखार हो जाती है।

## 5 साल के बच्चे को पटक-पटककर मार डाला

पीछे से दौड़कर आया...पैर पकड़ फिर उठाकर पटक दिया



मथुरा। गोवर्धन में एक अघेड़ ने 5 साल के बच्चे को पटक-पटक कर मारा डाला। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद दौड़कर बच्चा सड़क पर खेलता दिख रहा। तभी पीछे से लुंगी पहने एक शरख आता है। वह पहले एक व्यक्ति से टकराता है। इसके बाद दौड़कर बच्चे के पास पहुंचता है। जब तब लोग कुछ समझ पाते हैं, तब तक वह बच्चे का पैर पकड़कर उठा लेता है और जमीन पर पटक देता है। उसने बच्चे को 2 बार जमीन पर पटकवा। जिससे बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद मौके

पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुमाई की। घटना शनिवार की है। आज इसका वीडियो सामने आया है। घटना शनिवार शाम करीब साढ़े 6 बजे की है। राधाकुंड सामुदायिक केंद्र के पास अंकित (5) अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी अचानक एक व्यक्ति वहां पर आया। उसने बच्चे का पैर पकड़ कर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद आरोपी भागे लगा। लोगों ने दौड़कर आरोपी को पकड़ा लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसी बीच गंभीर रूप से घायल



बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बच्चे की हत्या से नाराज परिजन शव लेकर सड़क पर बैठ गए। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने परिक्रमा मार्ग जाम कर दिया था। मौके पर पहुंचे एस्प्री देहात त्रिगुन विशेष और एसडीएम दीपिका मेहर ने आक्रोशित लोगों को समझाया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जा कर लोगों ने मासूम का शव उठने दिया था। एस्प्री देहात ने बताया कि आरोपी भिंड का रहने वाला है। पिटाई से घायल है, उसका इलाज चल रहा

है। अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पिता हरपाल का कहना है, "शनिवार शाम के समय घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर मैंने अपना ठेला लगाया था। अचानक लोगों ने बताया कि तुम्हारे बच्चे को कोई पटक रहा है। मैं ठेला छोड़कर दौड़ते हुए आया। जब तक पहुंचा तो बेटा मर चुका था।" वहां पहुंचा तो लोगों ने बताया कि मेरे बच्चे अंकित को आरोपी ऐसे जमीन पर पटक रहा था जैसे कोई निर्जीव वस्तु हो।

## डेढ़ घंटे में मां-बच्चे को कराया रिहा

**वाराणसी।** दिनदहाड़े दो बदमाशों ने घर के बरामदे में खेल रही ढाई साल की बच्ची को किडनेप करने की कोशिश की। लोगों ने देखा तो शोर मचा दिया। इस पर बदमाश घर में घुस गए। बच्ची और मां को चारू के दम पर बंधक बना लिया। मोहल्ले के लोगों ने पुलिस और बच्ची के पिता को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर को घेर लिया। पिता की बदमाशों से बात कराई। बदमाशों ने दोनों को छोड़ने के लिए 10 लाख की फिरोती मांगी। पुलिस ने बदमाशों को झर्रसे में लेकर



दरवाजा खुलवाया और पकड़ लिया। मां और बच्ची सुरक्षित हैं। घटना रविवार दोपहर करीब 2 बजे की है। वहां भैया लाल अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह निर्माण निगम में सरकारी इंजीनियर हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोपहर में उनकी ढाई साल की बच्ची घर के बरामदे में खेल रही

थी। तभी दो युवक वहां पर गमछा लपेटे हुए पैदल चलकर आए। वे बच्ची को उठाकर भागने लगे। बच्ची को ले जाते लोगों ने देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। जिसके बाद दोनों बदमाश पकड़े जाने के डर से बच्ची को लेकर घर में लेकर घुस गये। उस समय घर में सिर्फ इंजीनियर की पत्नी ही थी। बदमाशों ने बंदूक दिखाकर उन्हें बच्चे के साथ बंधक बना लिया। उसके बाद रिहा करने के लिए दस लाख रुपए की मांग करने लगे। लोगों ने फौरन इसकी सूचना बच्चे के पिता और पुलिस को दी। सूचना

मिलते ही शिवपुरी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। करीब डेढ़ घंटे तक ऑपरेशन चला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चे और उसकी मां को रिहा कराया। घटना की सूचना मिलने ही वहां पर एसीपी कैंट अतुल अनजान पहुंचे थे। उन्होंने भैया लाल का रिश्तेदार बनकर बदमाशों से बात की। बदमाशों से कहा कि वे रुपए देने के लिए तैयार हैं। इतने देर में पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। एसीपी ने बदमाशों से कहा कि रुपए का इंतजाम हो गया है।

## बदायूं में दो लाख की अफीम समेत पकड़े गए तस्क़र

**बदायूं।** वजीरगंज थाना पुलिस ने दो अफीम तस्क़र पकड़े हैं। इनमें एक आरोपी बरेली का रहने वाला है तो दूसरा बदायूं का निवासी है। दोनों मोबाइल चोरी की वारदातों में भी लिप्त रहे हैं। इनके पास से चोरी के 19 मोबाइल सेट बरामद हुए हैं। साथ ही 180 ग्राम अफीम भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक कुल रिकवरी तस्क़र चार लाख रुपये की है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चोरी समेत एनडीपीएस के तहत मुकदमा कायम किया है। पुलिस के मुताबिक चेंकिंग के दौरान बिसौली-बग़रैन रोड पर

भवानीपुर गांव के पास दो सड़ियल लोगों को हिरासत में लिया गया। इनके पास से दो थैले मिले। एक में 14 एंड्रयूड मोबाइल और पांच कीपैड मोबाइल सेट थे। जबकि दूसरे थैले में अफीम थी। दोनों को पकड़कर पुलिस थाने ले गई। यहां पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम दीपक साहू निवासी मोहल्ला कचीयान वार्ड संख्या चार कस्बा विशारगंज, बरेली और पंकज कुमार निवासी गांव इटौआ थाना वजीरगंज, बदायूं बताया। आरोपियों ने कबूला कि वो ट्रक ड्राइवरों के साथ मिलकर ढाबों से अफीम को तस्क़री करते हैं।

## यूपी में 50 हजार युवाओं को मिलेगा पॉलीटेक्निक में प्रवेश

● योगी सरकार ने राजकीय एवं अनुदानित पॉलीटेक्निक में प्रवेश के लिए निर्धारित की सीटों की संख्या ● 2023-24 सत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 49778 सीटों का किया गया निर्धारण ● निर्धारित सीटों पर संस्थाओं में 10 प्रतिशत इंडब्ल्यूएस कोटा भी होगा लागू ● 2022-23 सत्र में प्रवेश क्षमता के आधार पर किया गया सीटों का निर्धारण

**संवाददाता**  
लखनऊ। योगी सरकार ने प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के नियंत्रण वाले राजकीय एवं अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित होने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश क्षमता निर्धारित कर दी है। शासन की ओर से मिले अनुमोदन के अनुसार डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में कुल 49778 अर्थात् प्रवेश ले सकेंगे। सीटों की क्षमता का निर्धारण 2022-23 सत्र में प्रवेश क्षमता में विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों की रफिच को देखते हुए किया गया है। यही नहीं, निर्धारित सीटों पर प्रवेश में आरक्षण संबंधी नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सीटों में 10 प्रतिशत इंडब्ल्यूएस कोटा भी उपलब्ध होगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं का कौशल निखारकर उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयासरत योगी सरकार प्रति वर्ष हजारों युवाओं को

पॉलीटेक्निक के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करती है। सरकार की मंशा छात्रों को उनके पसंदीदा पाठ्यक्रमों में प्रवेश देकर मनपसंद करियर चुनने के प्रति प्रोत्साहित करना है। विगत वर्षों में देखा गया है कि कई पाठ्यक्रमों में युवाओं की ज्यादा दिलचस्पी रहती है, जबकि कुछ पाठ्यक्रमों में रुझान कम हुआ है। इसी को देखते हुए सरकार ने सीटों की संख्या का निर्धारण किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सभी संस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों का प्रवेश निर्धारित सीटों तक ही किया जाएगा। सुनिश्चित करना होगा कि जिन संस्थाओं के लिए प्रवेश क्षमता का निर्धारण किया गया है, उनमें प्रवेश या पंजीकरण के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया हो। समस्त राजकीय या अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए निर्धारित 49778



सीटों पर काउंसिलिंग के पूर्व समस्त तथ्यों एवं एआईसीटीई से अनुमोदन की स्थिति सचिव संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित की जाएगी। सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद भी छात्रों का पंजीकरण करते समय यह पुष्टि

करेंगे कि सभी सीटें एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त हैं। फॉर्मिसी पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रवेश क्षमतानुसार पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रवेश लिया जाएगा। पीसीआई सर्कुलर के अनुसार फॉर्मिसी पाठ्यक्रम में

तहत 2162 सीटों का निर्धारण किया गया है। इसी तरह इंटीग्रेटिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी इन दि मेन स्ट्रीम टेक्निकल एंड वोकेशनल स्क्रीम के अंतर्गत 35 सीट, द्वितीय पाली (दोपहर 2 बजे से शाम 8.30 बजे तक) के लिए 2542 और पीपीपी मोड में संचालित संस्थाओं में 900 सीटों का निर्धारण किया गया है। योगी सरकार ने छात्रावास में रहकर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे दिव्यांग छात्रों को बड़ी राहत दी है। कानपुर स्थित डॉ. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडिकैप्ड में छात्र एवं छात्राओं की फूड सॉल्यूशंस को 250 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। इस संस्थान में डिप्लोमा अनुदानित पाठ्यक्रमों में प्रवेश भर के 150 दिव्यांग छात्र एवं छात्राएं रहकर पढ़ाई करते हैं। उल्लेखनीय है कि काफी समय से फूड सॉल्यूशंस बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इस मांग के अनुरूप प्राप्त प्रस्ताव के तहत सरकार ने फूड सॉल्यूशंस में चार गुना वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

तहत 2162 सीटों का निर्धारण किया गया है। इसी तरह इंटीग्रेटिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी इन दि मेन स्ट्रीम टेक्निकल एंड वोकेशनल स्क्रीम के अंतर्गत 35 सीट, द्वितीय पाली (दोपहर 2 बजे से शाम 8.30 बजे तक) के लिए 2542 और पीपीपी मोड में संचालित संस्थाओं में 900 सीटों का निर्धारण किया गया है। योगी सरकार ने छात्रावास में रहकर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे दिव्यांग छात्रों को बड़ी राहत दी है। कानपुर स्थित डॉ. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडिकैप्ड में छात्र एवं छात्राओं की फूड सॉल्यूशंस को 250 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। इस संस्थान में डिप्लोमा अनुदानित पाठ्यक्रमों में प्रवेश भर के 150 दिव्यांग छात्र एवं छात्राएं रहकर पढ़ाई करते हैं। उल्लेखनीय है कि काफी समय से फूड सॉल्यूशंस बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इस मांग के अनुरूप प्राप्त प्रस्ताव के तहत सरकार ने फूड सॉल्यूशंस में चार गुना वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

संक्षिप्त डायरी

## पत्नी पर जनलेवा हमला करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार



संवाददाता

**बिजनौर।** मामूली विवाद में पत्नी के ऊपर धारदार हथियार पाठल से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल पाठल भी बरामद किया। मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जुलाहान का है। जहां के रहने वाले शरीफ पुत्र इस्माइल ने 14 अगस्त को मामूली विवाद के चलते अपनी पत्नी के ऊपर धारदार हथियार पाठल से कई बार वार कर उसे पर जानलेवा हमला किया था। जिससे पत्नी की एक उंगली काटकर अलग हो गई थी। साथ ही कई जगह उसके गंभीर चोट लगी थी। परिजनों ने गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसका इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल महिला के भाई कासिम की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ 307 और 324 की धारा में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल पाठल भी बरामद किया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चौकी इंचांजर मीर हसन का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया।

## चांदपुर में छात्र गुटों में फायरिंग की घटना से सनसनी



संवाददाता

**बिजनौर।** चांदपुर में छात्रों के दो गुटों में मारपीट व फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई है। छात्रों के गुटों में हुई घटना का मेन मॉडिटीव अभी सामने नहीं आया है। घटना शनिवार शाम की है। देर रात पुलिस को तहरीर दी गई थी। फायरिंग की घटना के बाद आरोपी युवकों का भागते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संपीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र का है। जहां चांदपुर कस्बे में शनिवार शाम फायरिंग की दो घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना चांदपुर के जलीलपुर रोड पर सौभाग्य गार्डन के पास घटी। यहां आरोपियों ने विकास कुमार पुत्र राजे सिंह और उसके साथी प्रियाश के साथ मारपीट की और जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। फायरिंग में वह बाल-बाल बच गए। उसके बाद इन्हीं आरोपियों ने चौधरी चरण सिंह चौक पर हवाई फायरिंग की और वहां से भाग गए। बताया जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह के बाद भागते हुए आरोपियों का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पीड़ित छात्र विकास कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि 18/8/2023 को उसकी कशिश, आशीष दोनों सगे भाई पुत्रगण नामालूम, उत्तम पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम रावटी थाना हीमपुर दीपा एवं दीप पुत्र नामालूम निवासी ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा से कहासुनी हो गई थी। 19 को देर शाम अपने दोस्त प्रियाशु निवासी रसूलपुर थाना हट्टौर के साथ जलीलपुर सौभाग्य गार्डन के पास एक खोके पर कॉलैड्रिक पी रहा था। तभी कशिश, आशीष, उत्तम व दीप आए और आते ही गाली गलौज करने लगे। मैंने गाली देने से मना किया तो मेरे साथ मारपीट की। इन लोगों में से एक ने जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर तमचे से फायरिंग कर दिया। शोर शराबा सुनकर लोगों का आता देख यह लोग यह कहते हुए भाग गए कि आज तो बच गया अगली बार नहीं छोड़ेंगे।

## चांदपुर में बदमाशों ने युवक को बेरहमी से पीटा: बीच-बचाव करने पहुंची महिला को भी पीटकर किया घायल

**संवाददाता**  
**बिजनौर।** चांदपुर में हो रहे मारपीट में बीच बचाव करने पहुंची महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। आरोप है कि मदरसे के विवाद को लेकर दबंग उसके भाई को पीट रहे थे। वह छुड़ाने पहुंच गई। बीच बचाव करने का नतीजा उसके दोनों हाथों को उठाना पड़ा। महिला को इतना पीटा कि उसके हाथ नीले पड़ गए। महिला ने मामले में पुलिस को तहरीर देकर दबंगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। दरअसल मामला बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र का है। जहां चांदपुर कस्बे में मोहल्ला बाजार में कुछ दबंगों द्वारा एक महिला को बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। महिला को इतना पीटा गया कि उसके दोनों हाथ नीले पड़ गए। हाथों की खाल तक उधड़ गई। उसका कसूर इतना था कि वह दबंगों द्वारा पीटे जा रहे अपने भाई को छुड़ाने व बीच बचाव करने पहुंच गई थी जिसका खामियाजा उसके दोनों हाथों को भुगताना पड़ा। महिला ने थाना चांदपुर पहुंचकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला मेहरुनिसा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि कल रात को लगभग 9:30 बजे वह अपने घर पर थी। तीन-चार लोग उनके घर पर आए और उनके भाई को बुलाया और मारपीट करने लगे। बीच बचाव में गईं तो उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया जिससे मेरे गंभीर चोटें आई हैं। मुझे डॉक्टर के लिए ले गए। बदमाशों ने मेरे भाई समीम को जान से मारने की धमकी दी। मुझे गंदी-गंदी गालियां दीं। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग आए। उन्होंने हमें बचाया। वह चारों हमें धमकी देते हुए भाग गए। इनमें से दो को तो पहचानती हूँ जिनमें से एक हाजी अहसान पुत्र अब्दुल्ला और उसका पुत्र उमर पुत्र अहसान था। मामले में थानाध्यक्ष ने बताया कि आपसी मामला है। अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।

## अतिक्रमण विरोधी अभियान: दिल्ली के झंडेवाला मंदिर व मजार का हिस्सा तोड़

नई दिल्ली। लोक निर्माण विभाग ने रविवार सुबह झंडेवाला इलाके में रानी झांसी रोड पर अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत एक मंदिर और एक मजार (जिसे मामू-भांजे मजार के नाम से जाना जाता है) को सामने की दीवार को तोड़ दिया। कानून एवं व्यवस्था



की स्थिति बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की मौजूदगी में तोड़फोड़ की गई। सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना का मार्ग प्रशस्त करने के लिए थी। पुलिस ने कहा कि इलाके में किसी अग्रिम घटना की सूचना नहीं है और अभियान शांतिपूर्ण रहा। सूत्रों ने बताया कि मंदिर को पास के इलाके में स्थानांतरित किया जाएगा।

## दिल्ली में नाबालिग लड़की का अपहरण करके मांगी 50 लाख की फिरोती, 2 गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने 14 वर्षीय लड़की का अपहरण करने और उसकी रिहाई के लिए 50 लाख रुपये की फिरोती मांगने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान रवि कुमार (18) और आकाश (24) के रूप में हुई है। आरोपियों ने पीड़िता को इस्टाग्राम पर फेशन डिजाइनिंग के लिए नेपाल जाने का झांसा दिया था। लेकिन लड़की को कब्जे में लेने के बाद आरोपियों ने उसके परिवार को फिरोती के लिए फोन किया और 50 लाख रुपये की मांग की। 16 अगस्त को ताहिरपुर के एक निवासी से शिकायत मिलने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बेटी जनता कॉलोनी में एक ट्यूशन सेंटर गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। जब उन्होंने उसे फोन करने की कोशिश की तो उसका फोन बंद था। ट्यूशन सेंटर और आस-पास के इलाकों में तलाश करने के बावजूद, उसका पता नहीं चल सका।

बाद में उस रात, उन्हें फिरोती के लिए एक कॉल आई जिसमें लड़की की सुरक्षित वापसी के लिए 50 लाख रुपये की मांग की गई। शाहदरा के पुलिस उपयुक्त रोहित मीणा ने कहा कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच के दौरान करीब 60-70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी और पीड़िता को मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन की ओर जाते हुए देखा।

## बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद कर रही है सेवा भारती

नई दिल्ली। सेवा भारती, दिल्ली प्रान्त लगातार बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। इसी क्रम में भी सेवा भारती से जड़े लोग दिल्ली के स्कूली विद्यार्थियों के बीच पहुंचे और उन्हें पढ़ने लिखने का सामान उपलब्ध कराया। सेवा भारती ने एक बयान जारी कर कहा कि संस्था की ओर से आज दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैप लगाए गए और विद्यार्थियों को जरूरी सामान उपलब्ध कराए गए।

सेवा भारती के दिल्ली प्रान्त के महामंत्री सुशील गुप्ता ने बताया कि हम नर सेवा-नारायण सेवा को मूल मंत्र मानकर पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से वंचित उपेक्षित समाज के बीच कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भारती सक्षम परिवारों और वंचित परिवारों को एक साथ लाने का काम करती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए सामाजिक जिम्मेदारी आवश्यक है। इसी क्रम में हम इन क्षेत्रों में लगातार प्रयासरत हैं, जिससे समाज का कोई भी वर्ग पीछे न रहे और कदम ताल करते हुए एक स्वर में देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभा सकें।

उल्लेखनीय है कि सेवा भारती के 250 से अधिक कार्यकर्ताओं ने बाढ़ के दौरान दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कैप लगाकर लोगों के खाने, ठहरने और दवा-पानी आदि का इंतजाम किया था।



## हाईकोर्ट का आदेश- इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक और मेडिकल कचरे की न हो अवैध डंपिंग, निगम करे सुनिश्चित

इस्लामाबाद। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक और मेडिकल कचरे की अवैध डंपिंग नहीं हो। अदालत ने कहा कि चूक करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरला की खंडपीठ ने नागरिक निकाय को दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत सभी दोषी इकाइयों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।

पीठ ने कहा कि एमसीडी यह सुनिश्चित करेगी कि

वैधानिक प्रावधान के विपरीत दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक



खिलाफ उचित कार्रवाई करे और अन्य प्राधिकरण भी दिल्ली में सभी उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करें। पीठ ने एमसीडी को पर्यावरण

## राजधानी की सड़कों पर जल्द उतरेंगी 100 ई-बसें, पंजीकरण प्रक्रिया खत्म होने के बाद मिलेगी हरी झंडी

नई दिल्ली। बसों की कमी से जूझ रहे दिल्लीवासियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बेड़े में जल्द ही 100 के करीब इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने वाली हैं। इन बसों की पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है, जिसके पूरा होने के बाद हरी झंडी दिखा दी जाएगी। बीते दिनों इसी तरह की बसें सड़कों पर उतारनी थीं, लेकिन कुछ खामियों के कारण नहीं आ पाई थीं। डीटीसी सूत्रों के अनुसार, सितंबर के अंत तक सड़कों पर आने की उम्मीद है।

मौजूदा समय में डीटीसी के पास कुल 488 इलेक्ट्रिक बसें हैं। इनमें वह बसें भी शामिल हैं, जिन्हें बीते साल बेड़े में शामिल किया गया था। अधिकारियों के

मुताबिक, सब कुछ ठीक रहा तो यह बसें यात्रियों के सफर को



आरामदायक बनाएंगी। उन्होंने बताया कि यह बसें मायापुरी डिपो से चलेगी। कुछ बसों को तकनीकी स्तर पर दोबारा देखा जा

कानूनों के तहत वैधानिक प्रावधान का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और मानदंडों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों और गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यात्मक इकाइयों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई को चार महीने के भीतर पूरा करने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक और मेडिकल कचरे की अवैध डंपिंग के साथ-साथ अन्य तरह के प्रदूषण के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में बन रहे गंभीर हालात के संबंध में प्राप्त एक पत्र को 2020 में स्वतः संज्ञान जनहित याचिका मानकर सुनवाई की थी। एमसीडी को निर्देश पारित कर हाईकोर्ट ने इसका निपटारा कर दिया।

## नोएडा में कठोर जुर्माना, वाहन जब्ती से भी नहीं रुक रहा इंडस्टा पर रील बनाने का जुनून

नोएडा। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए रील बना कर अपनी और दूसरे की जान जोखिम में डालने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। एक तरफ पुलिस लगातार ऐसे वाहन चालकों का चालान कर रही है, उन्हें गिरफ्तार कर उनकी गाड़ियां सीज कर रही है। लेकिन उसके बाद भी मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इंटरनेट पर वायरल होने का



नया सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। पिछले 2 महीने में इस तरीके के मामले 4 गुना बढ़ गए हैं। कार्रवाई करने के नाम पर हजारों रुपए का चालान हो रहा है। वाहनों को सीज कर मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो की बाढ़ सी दिखाई दे रही है।

इस वर्ष बीते 8 माह में स्टंट कर वीडियो बनाने के 200 से ज्यादा वीडियो सामने आ चुके हैं। सबसे अधिक मामले पिछले 2 महीने में दर्ज किए गए। इनके वाहन स्वामियों पर भारी-भरकम जुर्माने के साथ-साथ इनके वाहनों को सीज कर मुकदमा किया गया है। सबसे कम 7 मामले जनवरी में आए थे। वहीं फरवरी में इनकी संख्या बढ़कर 14 हो गई और फिर धीरे-धीरे हर महीने यह मामला बढ़ते रहे।

17 अगस्त को एक वीडियो सामने आया जिसमें एक युवक चलती कार की छत पर लेटा हुआ है और उसका वीडियो बनाया जा रहा है। ये वीडियो नोएडा थाना 24 क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए कार नंबर के आधार पर 26 हजार रुपए का चालान किया। वहीं कार की तलाश की जा रही है। वायरल हो रहा वीडियो 19 सेकेंड का है। वीडियो में कार का नंबर भी दिख रहा है।

## सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप व कीमती सामान चोरी

नोएडा। थाना बिसरख क्षेत्र के गौर सिटी माल के पास से अज्ञात बदमाशों ने आईबीएम कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार का शीशा तोड़कर उसमें रखा लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। थाना बिसरख के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गौर सिटी में रहने वाले इंजीनियर हर्षित पांडे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह 17 अगस्त को कुछ सामान खरीदने के लिए गौर सिटी माल गए थे। वह अपनी कार सर्विस लेन में खड़ी करके सामान लेने चले गए। इसी बीच अज्ञात चोरों ने उनकी कार का शीशा तोड़कर उसमें रखा लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। उन्होंने बताया कि पीड़ित आईबीएम कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

## बदमाशों ने लूट के इरादे से तीन लोगों को चाकू मारा, एक की मौत

नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके में बीती लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने तीन लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया। चाकूबाजी की सभी घटनाएं जनता मजदूर कॉलोनी की हैं, जहां शेर मोहम्मद (25) के पेट में चाकू मारने की बात कही गई। वह एक घर के अंदर छिपकर खुद को बचाने में कामयाब रहा। दूसरी घटना कॉलोनी के मकान नंबर 569 की है, जहां गुफरान (32) की पीठ में चाकू मारने की सूचना मिली। गुफरान का खून काफी बह गया था, जिस कारण उसकी मौत हो गई। आरोपितों ने उसका मोबाइल फोन लूट लिया। वह गांधीनगर में एक जीएस की फैक्ट्री में दर्जी का काम करता था। तीसरी घटना इसी कॉलोनी की है, जहां सारी कुमार (22) की गर्दन पर चाकू मारा गया। हालांकि वह बचने में सफल रहा। जांच-पड़ताल में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इन आरोपितों ने बताया कि कपिल, सोहेल और समीर नामक बदमाशों ने कुछ लोगों को लूटने का प्लान बनाया। उन्होंने हाल ही में बल्लामान इलाके से बड़े चाकू खरीदे थे। इस चाकू से सभी ने तीन लोगों को चाकू मारकर लूटने की कोशिश की। इनका कहना था कि तीनों में से केवल एक को ही लूटने में सफल रहे। इनमें से दो का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इनके तीसरे साथी का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी पहचान समीर उखल के रूप में हुई है। वह फरार है। फिलहाल, कपिल और सोहेल को गिरफ्तार कर लिया गया है।

## सुकेश ने केजरीवाल पर लगाए फिर आरोप- मैडिकल फर्म ने आप को 13 करोड़ रुपये दिए, फर्म ने किया इनकार

नई दिल्ली। नई दिल्ली जेल में बंद ठा सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर एक निजी कंपनी को मैडिकल टेका देने के लिए नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कंपनी ने इस दावे को 'बेबुनियाद' बताया है। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि गोवा चुनाव के लिए निजी कंपनी ने आप को 13 करोड़ रुपये दिए थे। उपराज्यपाल को लिखे पत्र में उसने कहा, 'दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली सरकार के तहत विभिन्न अस्पतालों के रक्त और अन्य बायोसैलैण्ट को संसाधित करने के लिए एक निजी फर्म, मेट्रोपोलिस लेबोरेटरी और पैथोलॉजी सेंटर को कई

चिकित्सा अनुबंध दिए हैं, मुख्य रूप से सभी दिल्ली जेल कैदियों के लिए। उसने आगे लिखा है, 'इस



आवेदन/शिकायत को दर्ज करने का कारण यह है कि पिछले गोवा चुनावों के दौरान मेरे कर्मचारियों ने मुझे बताया कि सत्येंद्र जैन के निर्देश पर मुंबई में मेट्रोपोलिस लैब्स के कार्यालय से तीन किस्टों में 13 करोड़ रुपये का भुगतान

किया गया था।' आरोप से इनकार करते हुए मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड के एक प्रवक्ता ने कहा :



'आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण है। हमारा इस व्यक्ति या किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है।' चंद्रशेखर ने आगे आरोप लगाया था कि फेसटाइम चैट में से एक में जैन और केजरीवाल ने उल्लेख किया था कि मेट्रोपोलिस के

निदेशक एक करीबी दोस्त हैं और वह धन का योगदान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी की मदद की है, और यह राशि मुंबई से एकत्र की जानी चाहिए और गोवा और बेंगलुरु भेजी जानी चाहिए।

चंद्रशेखर ने अपने पत्र में दावा किया, इसके बाद मेरे स्टाफ ने मुंबई में मेट्रोपोलिस के कार्यालय से 7-8 घंटों में दो किस्टों में 13 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की और जैन द्वारा लगातार समन्वय किया गया। 13 करोड़ रुपये में से 5 करोड़ रुपये जैन के चचेरे भाई डॉ. हिमेश को भेजे गए थे, जो बेंगलुरु के इंद्रानगर में रहते हैं। 8 करोड़ रुपये की शेष राशि गोवा भेजी गई थी, जिसे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एकत्र किया गया था, जिसका विवरण जैन द्वारा भेजा गया था।

## दिल्ली-एनसीआर में मच्छर मारने के लिए चलाई 'मॉस्किटो टर्मिनेटर' ट्रेन

नई दिल्ली। बदलते मौसम के बीच उत्तर भारत के कई राज्यों में डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इस बीमारी को फैलाने वाले मच्छरों के खात्मे के लिए भारतीय रेल भी तैयार है। इसी कड़ी में एमसीडी ने रेलवे के साथ मिलकर मच्छर मार स्पेशल ट्रेन शुरू की है। मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुक्रवार को नगर निगम की महापौर डॉ शैली ओबेरॉय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

शैली ओबेरॉय ने कहा कि दिल्ली में इस बार 40 साल का मौसम रिकॉर्ड टूटा है। इसलिए निगम की तरफ से रेलवे ट्रैक के आसपास झुगियां वाले इलाकों में कीटनाशकों का छिड़काव किया

जाएगा। आज से यह ट्रेन चलाई जा रही है और सितंबर तक यह ट्रेन चलेगी। इसमें डिब्बे नहीं हैं।



इन पर हाई प्रेशर वाले ट्रक खड़े हैं। इन ट्रकों का काम मच्छरमार दवाई का स्प्रे करना है। इस दौरान

ट्रेन की रफ्तार भी महज 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से

चलाई गई ये ट्रेन हजारों लोगों को चिकनगुनिया और डेंगू से बचाने में काफी मददगार साबित होगी। शैली ओबेरॉय ने कहा कि दिल्ली के उन तमाम इलाकों में जहां परियों के किनारे लोग रहते हैं, वहां ये कीटनाशक न केवल लावा को खत्म करेंगे, बल्कि मच्छरों को भी बेअसर करेंगे।

इससे रेल परियों के किनारे झुगियां में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कई इलाकों में घरों से निकलने वाला गंदा पानी रेलवे ट्रैक के किनारे जमा हो जाता है, जिससे मच्छर पनपते हैं, इससे वह भी खत्म हो जाएंगे।

जानकारी के अनुसार, छह सप्ताह में कुल 12 बार ये ट्रेन चलाई जाएगी।

## दिल्ली सरकार के वृक्षारोपण महाअभियान को आगे बढ़ाते हुए मालवीय नगर में मनाया गया वन महोत्सव

नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने अपनी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार का वन महोत्सव कार्यक्रम लॉन्च किया। डीजेबी उपाध्यक्ष ने वृक्षारोपण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में स्थानीय पार्श्वों सहित बड़ी संख्या में आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी, स्कूली बच्चे और क्षेत्र के सम्मानित लोग शामिल हुए। वन महोत्सव का उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन कर राजधानी दिल्ली को हरा - भरा बनाकर प्रदूषण मुक्त बनाना है। सरकार द्वारा इस साल लगभग 52 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा

50 लाख पौधा/झाड़ी एनडीएमसी द्वारा लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में



शामिल लोगों को निशुल्क पौधे भी वितरित किये गए। लोगों ने पेड़-पौधों की देखभाल करने की गारंटी दी और बच्चों एवं पौधों के

बीच फेंडिशप कराई गई। जिससे बच्चे दोस्त की तरह पेड़-पौधों

दिल्ली की प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा में वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी दिल्ली सरकार ने 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को सभी 21 संबंधित विभागों की हरित एजेंसियों के द्वारा पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 50 लाख पौधा / झाड़ी एनडीएमसी द्वारा लगाए जाएंगे। बता दें, सर्वे 16-17 अगस्त तक 1000 पंजीकृत मतदाताओं के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें 465 मतदाता भी शामिल थे। इन्होंने कहा था कि वे अपने राज्य के रिपब्लिकन प्राइमरी या कौन्सिल में मतदान करने की योजना बना रहे हैं।

## जी-20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में परिणाम दस्तावेज को सर्वसम्मति से स्वीकृत

नयी दिल्ली। जी-20 स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए परिणाम दस्तावेज को सर्वसम्मति से स्वीकृत गया है। यूक्रेन से संबंधित पैर पर हालांकि रुस और चीन ने असहमति जताई है। गुजरात के गांधीनगर में जी-20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीन दिन



की बैठक के अंतिम दिन शनिवार को परिणाम दस्तावेज को लगभग सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। यूक्रेन से संबंधित पैर पर हालांकि रुस और चीन ने असहमति व्यक्त की। दस्तावेज में वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने और सभी के पहुंच में लाने की प्रतिबद्धता जताई गई।

जी-20 देश सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्ता तक समान पहुंच के साथ चल रही वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों और भविष्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए अधिक लचीला, न्यायसंगत, टिकाऊ और मजबूत बनाने की सहमति पर पहुंचे।

## दालत ने कोयला घोटाला मामले में बसाक को सजा की मात्रा पर दलीलें सुनीं

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को छ्तीसगढ़ में एक कोयला आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में इस्पत मंत्रालय के पूर्व अधिकारी जी. के. बसाक को दी जाने वाली सजा की मात्रा पर दलीलें सुनीं। सुनवाई के डीएलए संजय कुमार ने अदालत से अधिकतम सजा और भारी भरकम जुर्माना लगाने की प्रार्थना की। उन्होंने सजा के बिंदु पर लिखित दलीलें भी दाखिल की हैं। वहीं दोषी बसाक के वकील अजीत सिंह ने अदालत के



समक्ष कहा कि दोषी की 72 वर्ष का है और हृदय और प्रोस्टेट रोग से पीड़ित है।

# धरना स्थल पर ही महिलाओं ने मनाई हरियाली तीज



**ग्रेटर नोएडा।** पिछले 3 महीने से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के विरुद्ध चल रहे किसानों के धरने में आज हरियाली तीज के पावन अवसर पर महिलाओं ने अपना त्यौहार भी धरना स्थल पर ही मनाया। आज का धरना संपूर्ण रूप से महिलाओं के नाम रहा। महिलाओं ने प्राधिकरण के बाहर ही नाच गाकर

त्यौहार मनाया और महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि जब तक उनकी सभी मांगि नहीं मान ली जाएगी धरना समाप्त नहीं होगा। आज के धरने की अध्यक्षता कर रही शांति देवी ने कहा कि जब तक हमारे सभी मुद्दे हल नहीं हो जाते हम यहां से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे मुद्दे पिछले काफी लंबे



समय से लंबित हैं और हर बार प्राधिकरण में बैठे हुए अधिकारी और सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि हम को गुमराह करते हैं। झूठे आश्वासन देकर हमारे धरने को उठवा देते हैं और बाद में अपनी कही बातों से मुकर जाते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं

तब तक घर वापसी नहीं। महिला किसान तिलक देवी ने कहा कि प्राधिकरण पर धरना देते हुए हमको लंबा समय हो गया है। जो लोग सरकार के नुमाइंदे बनकर हमारे मजसे से हैं। उनकी किसानों की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है, वह सरकार के प्रतिनिधि के तौर



पर हमारे मध्य आते हैं न की किसान के प्रतिनिधि के तौर पर, इसलिए अब हमने संकल्प लिया है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता हम यहां से जाने वाले नहीं हैं और ना ही किसी की बातों में आकर अपने धरने को समाप्त करेंगे। महिलाओं ने कहा कि आज हरियाली तीज का त्यौहार

है, जिसे हम अपने घर पर मनाते लेकिन प्राधिकरण की मनमानी के चलते हम लोगों का धरना चल रहा है। इसी वजह से आज प्राधिकरण पर ही हमने अपना त्यौहार मनाया है और इस दौरान महिलाओं और बच्चों ने नाच गाकर हरियाली तीज का त्यौहार धूमधाम से मनाया

## एल्यूमीनियम की शटरिंग हुई चोरी

**संवाददाता**

**नोएडा।** बदमाशों ने गाड़ को तमंचे दिखाकर सेक्टर-76 स्थित निर्माणधीन सोसाइटी से एल्यूमीनियम शटरिंग की प्लेट चोरी कर ली और भाग गए। ठेकेदार ने सेक्टर-113 थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस को दी गई शिकायत में विकास मिश्रा ने बताया कि वह सेक्टर-76 स्थित आम्रपाली क्रिडल होम सोसाइटी में फ्लैट का निर्माण करा रहे हैं। चार अगस्त की रात को बदमाश सोसाइटी की चारदीवारी को तोड़कर निर्माणधीन स्थल के अंदर घुस गए। इसके बाद वहां से लाखों रुपये की एल्यूमीनियम शटरिंग की प्लेट चोरी कर ले गए। गाड़ ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने तमंचा दिखाकर गाड़ को धमकाया और सामान लेकर भाग गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

## पति समेत तीन पर केस दर्ज

**संवाददाता**

**नोएडा।** सेक्टर-115 के गणेश नगर निवासी महिला ने पति, ससुर और सास पर मारपीट और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि आरोपियों ने उसको छल से धक्का देने की भी कोशिश की। सेक्टर-113 पुलिस ने महिला के पति, ससुर और सास के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से तीनों फरार हैं। पुलिस आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। सेक्टर-115 के गणेश नगर निवासी महिला के अनुसार 17 अगस्त की रात उसका ससुर विनोद सिंह उसके कमरे में घुस आया और उसे गलत नियत से दबोच लिया। इस पर उसने शोर मचा दिया। उसका पति विकास सिंह और सास निर्मला सिंह भी वहां आ गईं। दोनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और कपड़े भी फाड़ दिए। इसके बाद तीनों ने महिला का सिर दीवार में देकर मारा। मारपीट के बाद आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन छीनकर उसे कमरे में बंद कर दिया। किसी तरह उसने अपने दूसरे फोन से डॉयल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। शीर्ष अधिकारियों के आदेश के बाद महिला के पति, ससुर और सास के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया।

## पति और ससुर बने हैवान, घर की लक्ष्मी के साथ की हर्षे पार

**संवाददाता**

**नोएडा।** जिस पति को परमेश्वर मानकर पूजा और ससुर को पिता मानकर सम्मान दिया उन्होंने ही तमाम मयदाओं को ताक पर रखकर घर की लक्ष्मी के साथ बर्बरता की तमाम हर्षे पार कर दी। बाप बेटे ने मिलकर बहू को इस कदर पीटा कि वह बुरी तरह लहलुहान हो गई। पति और ससुर की हैवानियत का शिकार हुई महिला ने अपने ससुर पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए थाना सेक्टर 113 में मुकदमा दर्ज कराया है। मूल रूप से जौनपुर निवासी संगीता काल्यनिक नाम ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह अपने ससुराल वालों के साथ सेक्टर 115 में रह रही है। गत 17 अगस्त की रात उसका ससुर विनोद सिंह उसके कमरे में घुस आया और उसे गलत नियत से दबोच लिया। पिता समान ससुर की इस हरकत से वह हैरान रह गई और शोर मचा दिया। उसके शोर मचाने पर उसका पति विकास सिंह व सास निर्मला सिंह भी मौके पर आ गईं। दोनों ने उसको भला बुरा कहते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। संगीता का आरोप है कि तीनों लोगों ने मिलकर उसे दबोच लिया और उसका कई बार उसका सिर दीवार में देकर मारा। इस दौरान उसके पति ने कई बार उसे जमीन पर पटक कर उसका दांत टूट गया। मारपीट के बाद आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन छीनकर उसे कमरे में बंद कर दिया। किसी तरह उसने अपने दूसरे फोन से डॉयल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस उसे लेकर थाना सेक्टर 113 पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्यवाही के नाम पर थाने में उससे कुछ सादे पत्रों पर साइन करा लिए गए और उसे समझा-बुझाकर घर भेज दिया गया। थाना पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई न किए जाने पर पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मुलाकात कर न्याय देने की गुहार लगाई है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर उसके पति विकास सिंह व ससुर विनोद सिंह के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी देने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

## टीचर ने पैरेंट्स से की शिकायत तो 9वीं के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम

**संवाददाता**

**नोएडा।** थाना सेक्टर-39 क्षेत्र के सेक्टर-41 में नौवीं कक्षा के छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्कूल से शिकायत मिलने पर परिजनों ने छात्र को डाटा था। इसके अलावा एक अन्य युवक ने भी फांसी लगाकर जान दे दी। थाना प्रभारी ने बताया कि सेक्टर-41 में रहने वाले नरेश पाल के 13 वर्षीय बेटे हिमांशु कुमार ने अपने घर में फांसी लगा ली। हिमांशु को फांसी के फंदे पर लटककर देखकर परिजन उसे उपचार के लिए प्रयाग अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हिमांशु नौवीं कक्षा का छात्र था। गत दिनों उसका स्कूल में टेस्ट था। टेस्ट वाले दिन वह स्कूल नहीं गया, जिस पर टीचर ने उसके परिजनों को स्कूल में बुलाकर उसकी शिकायत की। शिकायत मिलने पर परिजनों ने हिमांशु को डाटा दिया जिससे गुस्सा होकर उसने स्कूल से आकर फांसी लगा ली। इसके अलावा सेक्टर-44 के गली नंबर-3 में रहने वाला सोरव कुमार अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। फांसी के फंदे पर लटका देखकर उसकी पत्नी ने आस-पड़ोस के लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा। लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें उसने अपनी पत्नी से पूछाछ न करने का जिक्र किया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सोरव शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी गांव में रह रही है।

## बार में दूसरे राज्य की पिलाई जा रही थी शराब

**संवाददाता**

**ग्रेटर नोएडा।** नियमों की ध्वजियां उड़ाए जाने की खबर सामने आई है। यहां पर दूसरे राज्यों से शराब तस्करी कर ग्राहकों को परीसे जाने की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बार पर छापेमारी करते हुए दूसरे राज्यों की अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। इस दौरान मौके से बार संचालक समेत चार लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है इस बार में हरियाणा राज्य से अंग्रेजी शराब और बीयर लाकर ग्राहकों को परीसे जा रही थी। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि जिले में आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब और ओवर रेटिंग को लेकर कार्रवाई कर रहा है। जिसको लेकर आबकारी विभाग समय समय पर शराब विक्रताओं को



लगातार सचेत भी करता रहता है। इसी क्रम में आबकारी विभाग ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जोकि अन्य राज्य की शराब को अवैध रूप से अपने राज्य में लाकर पिला रहे थे। आबकारी विभाग गोपनीय सूचना मिली कि ग्रेनो वैसे एक बार में अवैध रूप से दूसरे राज्य की शराब लाकर ग्राहकों को परीसे जा रही है। इसकी सूचना के बाद आबकारी अधिकारी के

निर्देश पर आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र -4 अभिनव शाही, आबकारी निरीक्षक गौरव चन्द, आबकारी निरीक्षक रवि जायसवाल द्वारा थाना बिसरख में गौर सिटी के एंबांकर प्लाजा स्थित स्काईबार हेडक्वार्टर रेस्टोरेंट में छापेमारी की। इस दौरान आबकारी विभाग की टीम ने बार में हरियाणा राज्य की शराब पिला रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान रेस्टोरेंट संचालक व वर्कर व अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। आबकारी अधिनियम के तहत पुष्पराज, अमित, नरेश व सुधीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई। जबकि आरोपी फरार हो गया। इस छापेमारी के दौरान बार से रेड लेबल, टीचर्स हाइलैंड्स क्रीम, बेलेंटाइन बकाई व मंकी शोल्डर के कुल 8 बोटल व जेम्सन सिमरन ऑफ के खाली बोटल बरामद की गईं। यह सभी सभी हरियाणा राज्य में बिक्री के लिए थी।

## एनईए ने सीईओ से मांगा

# न्यू नोएडा में अलग से स्थान

**संवाददाता**

**नोएडा।** नोएडा प्राधिकरण द्वारा आने वाले दिनों में बसाए जाने वाले न्यू नोएडा में उद्यमियों ने अपनी समस्याएं तलाशना शुरू कर दी हैं। शहर के उद्यमियों की संस्था नोएडा एन्ट्रप्रेनियर्स एसोसिएशन ने नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. लोकेश एम. से मांग की है कि प्राधिकरण द्वारा नया नोएडा बसाया जा रहा है उसमें रेड कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के लिए अलग से स्थान चिन्हित किए जाएं तथा उस क्षेत्र में कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाए। नोएडा प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में इंद्रा गांधी कला देव सेक्टर-6 में उद्योगों से जुड़ी समस्याओं को लेकर बैठक हुई जिसमें एनईए ने सीईओ डा. लोकेश एम के सामने विभिन्न समस्याओं व अपनी मांगों को रखा। नोएडा एन्ट्रप्रेनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन ने



बताया कि पूर्व में नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखंड स्वामियों को कार्यशीलता प्रमाण पत्र के लिए जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी एस.एस.आई पंजीकरण प्रमाण-पत्र/उ.प्र. व्यापार कर रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र/जी.एस.टी./विद्युत बिल आदि प्रदान देने पर कार्यशीलता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता था। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा उद्यमियों से कार्यशीलता प्रमाण देने से पूर्व कम्पलीशन सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है। पूर्व के वर्षों में कुछ उद्योगों को प्राधिकरण द्वारा कैसिल कर दिया गया था। यदि उनके द्वारा अपनी इकाई को रि-स्टोर करवाने की सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर

ली गई हैं तो उन्हें रि-स्टोर कर दिया जाए। नोएडा को बसाने व नोएडा के विकास में उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूर्व में नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा उद्यमियों को अपनी इकाई के विस्तार के लिए प्राधिकरण की पॉलिसी के अनुसार आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत औद्योगिक भूखंड (50 प्रतिशत) योजना निकाली जाती थी तथा उद्यमियों के लिए आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत (17.5 प्रतिशत) आवासीय भूखंड योजना भी लाई जाती थी। इस पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया। जिसके कारण कई उद्यमी इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। प्राधिकरण द्वारा अलग से ट्रांसपोर्ट नगर बसाया

# मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक पैलन चर्चा में आगंतुकों की भारी उपस्थिति

**संवाददाता**

**ग्रेटर नोएडा।** दिल्ली एनसीआर - 19 अगस्त 2023 - खिलौना-इंडिया टॉयज एंड गेम्स फेवर का दूसरा संस्करण 18 से 20 अगस्त 2023 तक इंडिया एक्सपोजे सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई व्यापारिक आगंतुक और प्रदर्शक स्टॉल आकर्षक उत्पादों के प्रतिभाग कर रहे हैं। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) के अध्यक्ष श्री दिलीप बैद ने बताया कि हफ्तले दो दिनों के दौरान अच्छी संख्या में खरीदारों ने मेलों का दौरा किया और भारत में बने खिलौनों और खेलों, विशेष रूप से कलेक्टिबल वस्तुओं, टिकाऊ और प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों की सोर्सिंग में अपनी रुचि साझा की। उन्होंने इस बात की खुशी जाहिर की कि इस आयोजन में देखने, सीखने, अनुभव करने और प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है। इसके साथ ही उन्होंने प्रसन्नता जताई कि इस तरह का सेक्टरल शो आयोजित किया गया। आयोजन में रोबोटिक्स, नए स्टार्ट-अप के उत्पाद, विरासत और पारंपरिक खिलौने, युवा समूहों से जुड़े खिलौने और सोखने और थैरेपी वाले



खिलौनों के कई लोगों को आकर्षित किया। आईपीसीएच के उपाध्यक्ष (द्वितीय) डॉ. नीरज खन्ना ने कहा, 'ह्यूमनेज (खरीद और सोर्सिंग टीम), अमेर्जन, लुलु इंटरनेशनल मॉल, रिलायंस रिटेल, आईकईए, स्केस और आईटीसी समूह के साथ स्टालों पर आते देखा जा रहा है। जहां खिलौना-इंडिया टॉयज एंड गेम्स मेले का दौरा किया और प्रदर्शकों के साथ व्यापार किया। इन ब्रांडों की क्रय-टीम शो से खुश और संतुष्ट थी और इस पैमाने पर इस मेले

के आयोजन के लिए ईपीसीएच के प्रयास की सराहना की। आईईएमएल के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने साझा किया, 'ह्यूमनेज खरीदारों और ब्रांड प्रतिनिधियों के अलावा, मेले में खिलौना संग्राहकों और उत्साही लोगों को बहुत पुरानी यादों और उत्साह के साथ स्टालों पर आते देखा जा रहा है। जहां पुराने जमाने की विरासत गुड़िया और हाथ आकर्षित कर रहे हैं, वहीं लुलु खिलौने और संग्राहक मॉडल को भी बहुत से

**संक्षिप्त डायरी**

## ठेकेदार ने खुद को गोली मार की आत्महत्या, कर्ज से था परेशान

**संवाददाता**

**ग्रेटर नोएडा।** ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाईराइज सोसाइटी में रहने वाले एक ठेकेदार ने बीती रात खुद को लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शुरूआती जांच में पता चला है कि वह कर्ज से परेशान था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना बिसरख को 18 अगस्त को रात 9.30 के आसपास सूचना मिली कि क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति बिशन कुमार मिश्रा (56 वर्ष) पुत्र जय नारायण मिश्रा, निवासी ए वन 702, निराला एस्पार सोसाइटी ने अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना के बाद परिजन बिशन को पास के ही यथार्थ अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस सूचना पर थाना बिसरख पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा भर पोस्टमॉर्टम की कार्यवाही की जा रही है। मृतक कंस्ट्रक्शन/ठेकेदारी का कार्य करता था। पुलिस द्वारा सभी बिंदुओं पर जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। शुरूआती जांच में पुलिस को पता चला है कि बिशन कुमार कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए थे और इसी की ठेकेदारी करते थे। धंधे में कर्ज के चलते वह काफी परेशान थे। उनके परिवार में उनकी बीवी और बच्चे हैं। पुलिस इस घटना में हर एंगल पर जांच कर रही है और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

## बाइक सवारों ने तोहफे में मिली चेन लूटी

**संवाददाता**

**नोएडा।** बाइक सवार बदमाशों ने आईटी प्रोफेशनल की साढ़े तीन तोले की सोने की चेन लूट ली और उसको धक्का देकर भाग गए। पीड़ित को चेन उसकी बहन ने जन्मदिन के अवसर पर तोहफे में दी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आम्रपाली प्रिंसले सोसाइटी निवासी सत्यम मिश्रा ने सेक्टर-49 थाने में दी शिकायत में बताया कि वह अपनी कार से सेक्टर-50 स्थित सेंट्रल मार्केट में सिम बदलने गए थे। स्टोर से करीब सौ मिनट दूर सत्यम ने अपनी कार खड़ी कर दी। सिम बदलने के बाद सत्यम स्टोर से अपनी कार की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में ही अपाचे बाइक पर सवार होकर दो बदमाश पीछे से आए और चेन लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने डॉयल 112 पर कॉल की और घटना की जानकारी पुलिस को दी। आरडब्ल्यू द्वारा लम्बाए गए सीसीटीवी कैमरे में लूट की घटना रिकॉर्ड हुई। दोनों बदमाशों ने घटना के समय हेलमेट लगा रखा था। पीड़ित के अनुसार 11 अगस्त को हुई घटना का केस 19 अगस्त को दर्ज किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि बाइक के नंबर के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है।

## ठेकेदार ने खुद को गोली मारकर जान दी

**संवाददाता**

**ग्रेटर नोएडा।** ग्रेनो वेस्ट की निराला एस्पार सोसाइटी में रहने वाले ठेकेदार ने अपने फ्लैट की बालकनी में खुद को राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का दावा है कि कर्ज में डूबने की वजह से ठेकेदार ने यह कदम उठाया। हालांकि, पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इसके चलते आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले को छानबीन में जुटी है। बिसरख कोतवाली पुलिस के मुताबिक निराला एस्पार सोसाइटी के फ्लैट नंबर ए वन 702 में 56 वर्षीय बिशन कुमार मिश्रा परिवार के साथ रहते थे। वह दिल्ली में कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी का काम करते थे। उन्होंने शुक्रवार रात अपने फ्लैट की बालकनी में जाकर लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली। परिजनों द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार राजपूत ने बताया कि पुलिस की शुरूआती जांच में पता चला है कि ठेकेदार आर्थिक रूप से परेशान थे। उनके ऊपर काफी कर्ज हो चुका था। इसके चलते वह शराब पीने के भी आदी हो गए थे। कर्ज में डूबने की वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। हालांकि, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

## महिला से सोने की चेन लूटी

**संवाददाता**

**ग्रेटर नोएडा।** बाइक सवार लुटेरों ने सेक्टर फाई-1 स्थित दीवानी न्यायालय सोसाइटी से बिरोंडी गांव में दूध लेने जा रही अधिवक्ता की पत्नी से सोने की चेन लूट ली। पीड़िता ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक सोसाइटी में अधिवक्ता देवचंद बंसल परिवार के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी रेशा देवी एक अन्य महिला के साथ शुक्रवार शाम पैदल पड़ोस के गांव बिरोंडी से दूध लेने जा रही थी। जब वे सोसाइटी के गेट नंबर-1 पर पहुंची तो पीछे से आ रहे बाइक सवार दो लुटेरों ने उनके गले से सोने की चेन झपट ली और बिरोंडी की तरफ भाग गए। महिला ने बताया कि वह सामने आने पर लुटेरों को पहचान सकती है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस बाइक का नंबर ट्रेस कर लुटेरों के बारे में जानकारी जुटा रही है। हालांकि, अभी तक पुलिस को कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है। इस मामले में एसीपी अरविंद कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर बीटा-2 कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द लुटेरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और घटना खुलासा होगा।

है। भारतीय खिलौने और गेम्स क्षेत्र अपनी विशाल अंतरराष्ट्रीय बाजार पहुंच और विस्तार की ओर बढ़ रहा है। इस क्षेत्र और विकास को गति देने के लिए विशेष रूप से एक पैलन चर्चा का आयोजन किया गया है। 'मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक इस पैलन चर्चा में आज प्रख्यात वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की दिशा में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव रखा। इसमें खिलौने और खेल निमाताओं और हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, जिसके 2028 तक 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 'मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक इस पैलन चर्चा में आज प्रख्यात वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की दिशा में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव रखा। इसमें खिलौने और खेल निमाताओं और हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, जिसके 2028 तक 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 'मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक इस पैलन चर्चा में आज प्रख्यात वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की दिशा में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव रखा। इसमें खिलौने और खेल निमाताओं और हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, जिसके 2028 तक 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 'मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक इस पैलन चर्चा में आज प्रख्यात वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की दिशा में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव रखा। इसमें खिलौने और खेल निमाताओं और हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, जिसके 2028 तक 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 'मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक इस पैलन चर्चा में आज प्रख्यात वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की दिशा में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव रखा। इसमें खिलौने और खेल निमाताओं और हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, जिसके 2028 तक 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 'मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक इस पैलन चर्चा में आज प्रख्यात वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की दिशा में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव रखा। इसमें खिलौने और खेल निमाताओं और हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, जिसके 2028 तक 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 'मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक इस पैलन चर्चा में आज प्रख्यात वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की दिशा में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव रखा। इसमें खिलौने और खेल निमाताओं और हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, जिसके 2028 तक 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 'मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक इस पैलन चर्चा में आज प्रख्यात वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की दिशा में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव रखा। इसमें खिलौने और खेल निमाताओं और हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, जिसके 2028 तक 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 'मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक इस पैलन चर्चा में आज प्रख्यात वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की दिशा में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव रखा। इसमें खिलौने और खेल निमाताओं और हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, जिसके 2028 तक 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 'मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक इस पैलन चर्चा में आज प्रख्यात वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की दिशा में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव रखा। इसमें खिलौने और खेल निमाताओं और हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, जिसके 2028 तक 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 'मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक इस पैलन चर्चा में आज प्रख्यात वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की दिशा में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव रखा। इसमें खिलौने और खेल निमाताओं और हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, जिसके 2028 तक 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 'मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक इस पैलन चर्चा में आज प्रख्यात वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की दिशा में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव रखा। इसमें खिलौने और खेल निमाताओं और हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, जिसके 2028 तक 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 'मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक इस पैलन चर्चा में आज प्रख्यात वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की दिशा में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव रखा। इसमें खिलौने और खेल निमाताओं और हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, जिसके 2028 तक 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 'मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक इस पैलन चर्चा में आज प्रख्यात वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की दिशा में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव रखा। इसमें खिलौने और खेल निमाताओं और हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, जिसके 2028 तक 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 'मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक इस पैलन चर्चा में आज प्रख्यात वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की दिशा में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव रखा। इसमें खिलौने और खेल निमाताओं और हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, जिसके 2028 तक 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 'मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक इस पैलन चर्चा में आज प्रख्यात वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की दिशा में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव रखा। इसमें खिलौने और खेल निमाताओं और हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, जिसके 2028 तक 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 'मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक इस पैलन चर्चा में आज प्रख्यात वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की दिशा में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव रखा। इसमें खिलौने और खेल निमाताओं और हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, जिसके 2028 तक 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 'मेड इन इंडिया टॉयज इंडिया रिगिंग क्रिएटिविटी एंड एनकरेजिंग न्यू-एज इनोवेशन' विषयक इस पैलन चर्चा में आज प्रख्यात वक्ताओं और डोमेन विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की दिशा में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव रखा। इसमें खिलौने और खेल निमाताओं और हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक स्तर पर सबसे





# जरीन खान को हुआ डेंगू



अभिनेत्री जरीन खान को डेंगू के गंभीर मामले के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विभिन्न फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर अभिनेत्री वर्तमान में गहन चिकित्सा उपचार से गुजर रही हैं। डेंगू हाल के दिनों में चिंता का कारण बना हुआ है। जरीन खान इस बीमारी से बचाव के लिए निवारक उपाय करने के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। संक्रमण तेजी से बढ़ा, जिससे उसे भारी बुखार और तीव्र शरीर दर्द सहित डेंगू से जुड़े सभी कष्टकारी लक्षणों का अनुभव हुआ। इसके अतिरिक्त जरीन खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने अस्पताल के कमरे से एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने अपने प्रशंसकों और अनुयायियों से डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए सावधानियों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। मच्छर-मुक्त परिवेश बनाए रखने, मच्छर निरोधकों का उपयोग करने और सुरक्षात्मक कपड़े पहनने के महत्व पर जोर देता है। जरीन खान का अनुभव डेंगू की गंभीरता और इसके प्रसार से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता की याद दिलाती है। एकता और सक्रिय उपायों के लिए उनका आह्वान हमारी और हमारे सोसाइटी की सुरक्षा में हम सभी की जिम्मेदारी को व्यक्त करता है।



## महज 14 महीने तक चली ब्रिटनी स्पीयर्स और सैम असगरी की शादी

लॉस एंजेलिस। हॉलीवुड सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स एक बार फिर से चर्चा में हैं। पॉप स्टार के पति सैम असगरी ने शादी के महज 14 महीने बाद अपने मतभेदों को लेकर तलाक के लिए अर्जी दी है। रिपोर्ट के अनुसार सैम ने आरोप लगाया है कि ब्रिटनी स्पीयर्स ने उन्हें धोखा दिया। अलग हो चुके जोड़े ने अधिकांश विवरण गुप्त रखे हैं। लेकिन कथित तौर पर दोनों के बीच भारी झगड़ा हुआ जिसके बाद सैम ने तलाक के लिए फाइनल करने का फैसला किया। टीएमजेड ने आगे बताया कि सैम, ब्रिटनी स्पीयर्स के वकील की फ्रीस का भुगतान करने के लिए कह रहा है। लेकिन उनकी फाइलिंग में कहा गया है कि उन्होंने अभी तक संपत्ति, परिसंपत्तियों और दायित्वों का निर्धारण नहीं किया है। शादी के बाद से ही इस जोड़े के बीच कुछ गहरी परेशानी चल रही है। शादी के बाद सैम और ब्रिटनी में कुछ ठीक नहीं था। अक्सर दोनों में झगड़े होते थे, जिसमें चिल्लाना, अपमान करना और मारना भी शामिल है। सैम ने कहा कि 28 जुलाई, 2023 को तलाक हो चुका है। तलाक को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। दोनों सितारों ने अब आगे साथ रहने से इनकार कर दिया है। इस जोड़े की पहली मुलाकात 2016 में गायक के स्लॉवर पार्टी संगीत वीडियो के सेट पर हुई थी, जिसके बाद वे बिना किसी स्पॉटलाइट के अपनी कैमिस्ट्री को आगे बढ़ाने लगे।

## एपी दिल्ली पर लगा तिरंगे का अपमान करने का आरोप



गानों के जरिए सुखियां बंटोरते रहते हैं। लेकिन इस बार एपी दिल्ली अपने जूते की वजह से चर्चा में आ गए हैं। दअरसल, एपी दिल्ली ने हाल ही में बनिता संधू के साथ अपने नए गाने विथ यू के प्रमोशन के दौरान की कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें वह कलरफुल जूते पहने नजर आ रहे हैं। एपी दिल्ली की तस्वीरें देखने के बाद यूजर्स दावा कर रहे हैं कि उनके जूते का कलर भारतीय तिरंगे से काफी मिलता जुलता है। इसके बाद से ही उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। यूजर्स एपी दिल्ली पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- यह एक फेमस पंजाबी सिंगर एपी दिल्ली हैं।



15 अगस्त से ठीक पहले, वह इंस्टाग्राम पर अपने जूते दिखा रहे हैं। उनके जूते का रंग देखें। क्या वह जानबूझकर हमारे तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। एक अन्य ने लिखा, ये कोई इंसीडेंट नहीं है बल्कि जानबूझकर किया गया है। हालांकि विवाद बढ़ने पर एपी दिल्ली ने अपने सोशल मीडिया से यह विवादस्पद पोस्ट हटा दिया। लेकिन इसके बाद भी उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

## मानुषी छिल्लर को बैक टू बैक दो बड़ी फिल्मों हुई ऑफर

पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ सेल्फ मेड वूमन भी हैं जो अपने दम पर अपना करियर संवारने चली हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में मानुषी ने अपनी एक अलग जगह और पहचान बनाई हैं। मानुषी निरसंदेह एंटरटेनमेंट की दुनिया में सबसे प्रमुख प्रतिभाओं में से एक बन कर उभरी हैं और जिसका एक बड़ा सबूत बैक टू बैक उनकी दो बड़ी फिल्मों की अनाउंसमेंट के साथ मिला है। बता दें, मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 रही हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतकर प्लोबल लेवल पर देश को गौरवान्वित किया है। अब एक ही दिन में अपनी दो बड़ी फिल्मों की घोषणाओं की खबर के साथ उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है। मानुषी की पहली फिल्म जिसका एलान हुआ वो बिग बजट, बाइलिंगुअल फिल्म, ऑपरेशन वेलेंटाइन है। इस फिल्म में एक्ट्रेस फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आएंगी और एक रॉक ऑफिसर का रोल प्ले करती दिखेंगी। वरुण तेज सह-अभिनीत यह फिल्म 8 दिसंबर, 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। जबकि दिन की दूसरी बड़ी घोषणा उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म, द ग्रेट इंडियन फैमिलीक को लेकर हुई। इस फिल्म में मानुषी को विक्की कोशल के साथ पेयर किया गया है। ये यशराज फिल्मस द्वारा निर्मित है जो 22 सितंबर, 2023 को सिनेमाघरों में आएगी। यह वास्तव में मानुषी छिल्लर के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि अपने करियर के शुरुआती दिनों में वो दो सबसे बड़ी इवेंट फिल्मों में दिखाई देंगी, जो दोनों अलग-अलग शैलियों से आती हैं, और यह इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनकी मांग को भी दर्शाता है। इस खुशी के मौके पर अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए, उन्होंने कहा, मैं बेहद एक्साइटेड और रोमांचित हूँ कि आज मेरी दो फिल्मों की घोषणा की गई है। ऑपरेशन वेलेंटाइन और द ग्रेट इंडियन फैमिली। एक ही दिन में दो फिल्में! दोनों बिल्कुल अलग शैली हैं।

लीक से हटकर काम करने वाले अभिनेता आयुष्मान खुराना जल्द ही ड्रीम गर्ल 2 में दिखाई देंगे। वह पहले ऐसे अभिनेता हैं, जिनके पास कमर्शियल कॉमेडी फिल्म फेंचाइजी है। अभिनेता ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई थी। कमर्शियल कॉमेडी फिल्म फेंचाइजी के बारे में बात करते हुए आयुष्मान ने कहा, मैंने कभी योजना नहीं बनाई थी कि मेरी फिल्मोग्राफी में एक हिट कॉमेडी फेंचाइजी होगी। ईमानदारी से कहूँ तो यह मेरे साथ गलती से हुआ है। मैंने केवल मनोरंजक प्रोजेक्ट्स की तलाश की है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों से जुड़ सकूँ। उन्होंने कहा, मुझे ड्रीम गर्ल फेंचाइजी का मौका मिला और यह मेरे लिए बिल्कुल सही साबित हुई क्योंकि यह वास्तव में एक ब्रेक-आउट कॉन्सेप्ट है, जिसे फिलहाल किसी ने नहीं किया। आयुष्मान ने कहा कि मुझे हमेशा ऑरिजनल रहना और लीक से हटकर काम करना पसंद है। अभिनेता ने कहा, आपको ड्रीम गर्ल फेंचाइजी से ज्यादा कुछ अलग नहीं मिल सकता, यही कारण है कि मुझे लगता है कि लोगों ने पहली फिल्म को इतना पसंद किया है। उन्होंने कहा, ड्रीम गर्ल 2 के ट्रेलर को मिली प्रतिक्रियाओं से यह पता चलता है कि हम सही रास्ते पर हैं। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि लोग ड्रीम गर्ल 2 को पसंद करेंगे। हमने लोगों के लिए एक मनोरंजक फिल्म लाने के लिए कड़ी मेहनत की है, जिसे देखकर लोग अपनी सीट से गिर जाएंगे।

## ड्रीम गर्ल 2 देखकर दर्शक अपनी सीट से गिर जाएंगे

## ड्रीम गर्ल 2 से रिप्लेस करने पर छलका नुसरत भरुचा का दर्द, बोलीं- यह नाइंसाफी है...

साल 2019 में रिलीज हुई आयुष्मान खुराना और नुसरत भरुचा की फिल्म ड्रीम गर्ल को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली थी। वहीं अब मेकर्स इस फिल्म का सीकवल ड्रीम गर्ल 2 लेकर आ रहे हैं। ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान के साथ अनन्या पांडे अहम किरदार में नजर आने वाली हैं। हाल ही में नुसरत भरुचा ने ड्रीम गर्ल 2 का हिस्सा नहीं बनने पर अपना रिप्लेस दिया है। नुसरत को इस बात का दुख है कि उन्हें ड्रीम गर्ल 2 में कास्ट नहीं किया गया। जबकि वह फिल्म के पहले पार्ट यानी ड्रीम गर्ल का हिस्सा थीं। नुसरत ने कहा, मैं ड्रीम गर्ल का हिस्सा थी और मैं पूरी टीम से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके साथ काम करना बुरी तरह मिस करती हूँ। नुसरत ने कहा, लेकिन मुझे ड्रीम गर्ल 2 में क्यों कास्ट नहीं किया, इसका जवाब वही लोग दे सकते हैं। मुझे नहीं पता। कोई लॉजिक भी नहीं है और कोई जवाब भी नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे कास्ट क्यों नहीं किया? मैं भी इंसान हूँ, तो जाहिर है दुख तो होता है। और हाँ, यह नाइंसाफी है। लेकिन मैं समझती हूँ। ये उनका फैसला है। कोई बात नहीं।

## खतरों के खिलाड़ी से टेलीविजन की दुनिया का गुर सीखा : डेजी शाह

रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में प्रतिभागी डेजी शाह को लगता है कि वह इस शो से काफी कुछ सीख गई हैं। उन्होंने कहा कि खतरों के खिलाड़ी करने के बाद वह यह सीख चुकी हैं कि टेलीविजन पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। डेजी शाह ने सलमान खान के साथ फिल्म जय हो से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अभिनेत्री डेजी शाह रियलिटी शो करने वाली बॉलीवुड हस्तियों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। वह वर्तमान में फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 13 में प्रतिभागी हैं। अभिनेत्री को बुधवार को शिव ठाकरे और साउंडस मोंफाकिर के साथ गैमिंग चैलेंज में भाग लेते देखा गया। अभिनेत्री ने शो खतरों के खिलाड़ी में अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए कहा, इस शो के लिए मुझे सभी से बहुत प्यार मिल रहा है। मैंने इस तरह के प्यार की उम्मीद नहीं की थी। इस शो को करने का मकसद बड़े पैमाने पर दर्शकों से जुड़ना था। उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि टीवी की दुनिया कैसे चलती है। अब मैंने सीख लिया है कि टेलीविजन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह सीखने का एक शानदार अनुभव रहा है। मैंने इस शो के साथ बहुत अच्छी यादें और दोस्त बनाए हैं। शो में अपने विभिन्न स्टंट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, स्टंट शुरू करने से ठीक पहले एक तितली जैसा एहसास होता है लेकिन फिर आपको रोहित सर की आवाज सुनाई देती है कि आप यह कर सकते हैं। यह आपको स्टंट करने के लिए प्रेरणा देता है।